



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2007/कार्तिक 11, 1929

No. 216]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2007/KARTIKA 11, 1929

भारतीय बीमांकन संस्थान

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अक्टूबर, 2007

परिषद् की रिपोर्ट

31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा पिछली वार्षिक आम बैठक से लेकर 31-7-2007 तक की अवधि की गतिविधियों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए परिषद् को हर्ष हो रहा है।

बीमांकन अधिनियम, 2006 के प्रावधान 10 नवम्बर, 2006 से लागू हुए हैं। इसके फलस्वरूप, भारतीय बीमांकन संस्थान का गठन किया गया है और भारतीय बीमांकन सोसाइटी भंग कर दी गई है तथा भारतीय बीमांकन सोसाइटी की सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं भारतीय बीमांकन संस्थान को अंतरित करके उसमें निहित कर दी गई हैं।

बीमांकन अधिनियम, 2006 की धारा 55 के अनुसार, भारत सरकार उक्त संस्थान की नियमावली बनाएगा और उसे अधिसूचित करेगा तथा परिषद् की धारा 56 के अनुसार विनियमावली को अपनाकर उसे अधिसूचित करेगा। इस बीच, उक्त संस्थान भारतीय बीमांकन सोसाइटी की नियमावली (बशर्ते ये नियम उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों) का तब तक पालन करेंगे जब तक भारत सरकार नई नियमावली तथा विनियमावली को अधिसूचित नहीं कर देती।

भारतीय बीमांकन सोसाइटी के 1 अप्रैल, 2006 से 9 नवम्बर, 2006 तक के तथा उक्त संस्थान के 10 नवम्बर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक के खाते आहरित किए गए और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

परिषद् का गठन

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि भारत सरकार ने चुनावों की पद्धति के बारे में नियमावली को अभी अधिसूचित नहीं किया है। भारतीय बीमांकन सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति ही बीमांकन अधिनियम, 2006 की धारा 12(2) (ख) के अनुसार परिषद् के सभी कार्यों तथा शक्तियों का संपादन करती रहेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 12 (2) (ख) के अधीन डॉ. आर. कन्नन, सदस्य बीमांकक, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को और

श्री जी.सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग और बीमा प्रभाग, भारत सरकार को नामित किया है । 31-7-2007 को परिषद् के सदस्य इस प्रकार हैं :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. जी. एन. अग्रवाल, | अध्यक्ष |
| 2. के. एस. गोपालकृष्णन, | उपाध्यक्ष |
| 3. हीरक बसु, मानद सचिव | |
| 4. जी. एल. एन. शर्मा | |
| 5. पी. ए. बाला सुब्रमणियन | |
| 6. टी. भार्गव | |
| 7. एन. एम. गोवर्धन | |
| 8. एस. मधुसूदन | |
| 9. के. के. वाधवा | |
| 10. के. श्रीराम | |
| 11. आर. कन्नन | |
| 12. जी. सी. चतुर्वेदी | |

पदाधिकारी

1-7-2006 को सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में हुए चुनाव के परिणामस्वरूप निम्नलिखित पदाधिकारियों ने पदभार संभाला :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. आर. कन्नन | अध्यक्ष |
| 2. जी. एन. अग्रवाल | उपाध्यक्ष |
| 3. के. एस. गोपालकृष्णन | मानद सचिव |
| 4. जी. एन. एन. शर्मा | संयुक्त मानद सचिव एवं कोषाध्यक्ष |

डॉ. आर. कन्नन के त्यागपत्र के फलस्वरूप, 24-3-2007 को चुनाव सम्पन्न हुआ और निम्नलिखित पदाधिकारियों ने पदभार संभाला :

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. जी. एन. अग्रवाल | अध्यक्ष |
| 2. के. एस. गोपालकृष्णन | उपाध्यक्ष |
| 3. हीरक बसु | मानद सचिव |

बैठक

1 जुलाई, 2006 से 30 जून, 2007 तक भारतीय बीमांकित सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति तथा परिषद् की एक साथ मुंबई में नीचे दी गई तारीखों को 8 बार बैठकें हुई :

1. 1-7-2006
2. 26-8-2006
3. 11-11-2006
4. 5-1-2007
5. 10-2-2007
6. 24-3-2007
7. 12-5-2007
8. 5-6-2007

समितियां

आलोच्य अवधि के दौरान कई समितियां गठित की गईं । उनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) शिक्षा समिति

श्री के. पी. नरसिंहम की अध्यक्षता में इस समिति ने कार्य किया। इस समिति का मुख्य उत्तरदायित्व विषय वस्तु/पाठ्यक्रम तथा प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना है।

ii) परीक्षा समिति :

इस समिति ने श्री अर्पण थानावाला की अध्यक्षता में काम किया। इसकी जिम्मेदारी है परीक्षाओं का संचालन करना, पेपर सेटों को तय करना, परीक्षा अनुसूची आदि तैयार करना। परीक्षा परिणामों का प्रकाशन करना भी इसी समिति की जिम्मेदारी है।

आलोच्य अवधि में अक्टूबर/नवंबर 2006 तथा मई 2007 में दो समय परीक्षा हुई। अक्टूबर/नवंबर 2006 में 4043 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था जबकि 3079 परीक्षा में बैठे। मई 2007 में, 4426 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था जबकि 3046 परीक्षा में बैठे। परीक्षा समिति ने परीक्षा समाप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर ही सफलतापूर्वक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष के परीक्षा की सबसे उत्साहवर्धक विशेषता यह रही कि सात और फेलो सदस्य सफल हुए। मई 2007 की परीक्षा का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़कर 24.6% हो गया। मई 2006 तथा नवंबर 2006 की परीक्षाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 18.6 तथा 22.8 था।

iii) जीवन बीमा समिति:

इस समिति के पहले अध्यक्ष तो श्री एन. एम. गोवर्धन थे तथा बाद में श्री जी. एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में इस समिति ने काम किया। इस समिति की जिम्मेदारी है मार्गदर्शी नोट जारी करना, निरंतर संव्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, सम्मेलनों/सेमीनारों, पेपरो, बीमा विधियों तथा विनियमों आदि पर चर्चा करते रहना।

आलोच्य वर्ष के दौरान इस समिति ने अनेक गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे- 17 एवं 18 अगस्त 2006 को इसने जीवन बीमा के वर्तमान मुद्दों पर सेमीनार आयोजित किए और 23 एवं 24 नवंबर 2006 को स्टॉकेस्टिक मॉडलिंग पर इसने कार्यशाला आयोजित की और जोखिम-आधारित पूंजी (आरबीसी) पर कार्यचालन दल की बैठक की। मार्गदर्शी नोट 2 एवं 7 की समीक्षा भी की गई जिसमें जीएन 7 में आशोधन किया गया।

iv) साधारण बीमा समिति :

यह समिति मार्गदर्शी नोटों को जारी करने, निरंतर संव्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, सम्मेलनों/सेमीनारों आदि के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। समिति ने श्री पी. आइ. मुजूमदार की अध्यक्षता में काम किया।

v) पेंशन और सामाजिक सुरक्षा समिति :

इसने श्री के. पी. शर्मा की अध्यक्षता में काम किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी हितलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधान से संबंधित क्षेत्रों में बीमांकिक सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह समिति निरंतर संव्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने, लेखापरीक्षकों के संव्यवसाय, अर्थात् एएस 15 द्वारा जारी लेखांकन मानकों से संबंधित मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक 19 के लिए जिम्मेदार है।

समिति ने जून 2007 में सेवानिवृत्ति हितलाभ के वर्तमान मुद्दों पर एक सेमीनार का आयोजन किया। इसने जीएन 26 को भी अंतिम रूप दिया।

iv) अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति :

इस समिति ने का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि भारतीय बीमांकक संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा मिले तथा विश्व के अन्य बीमांकिक निकायों से संबंध स्थापित हो सके। समिति ने श्री वी. राजगोपालन की अध्यक्षता में काम किया।

vii) संव्यावसायिक कार्य तथा मानक समिति :

इस समिति ने श्री पी. ए. बालासुब्रमणियन की अध्यक्षता में काम किया। यह समिति सभी प्रकार के व्यवहार क्षेत्रों के निरंतर संव्यावसायिक विकास मुद्दों, संव्यावसायिक आचरण मानकों से संबंधित मुद्दों और उनका अनुपालन करने, अनुशासन लागू करने तथा सदस्यों के बीच अच्छे आचरण के लिए जिम्मेदार है।

समिति ने दिसंबर 2006 तथा जून 2007 में दो फेलोशिप सेमीनार आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमांकक संस्थान की बीमांकिक मानक पुस्तिका सदस्यों के उपयोग के लिए प्रकाशित की गई।

viii) स्वास्थ्य बीमा समिति :

इस समिति ने श्री लियाकत खान की अध्यक्षता में काम किया। कार्यक्रमों/स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की गतिविधियों का आयोजन करना इस समिति के उद्देश्यों में शामिल है। इसने स्वास्थ्य बीमा/देखभाल विनियामक मुद्दों पर जनवरी 2007 में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

ix) वित्तीय जोखिम प्रबंध समिति :

इस समिति ने श्री के. एस. गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में काम किया। समिति बीमांकिक अनुप्रयोगों का कामकाज देखती है और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में, वित्तीय सेवा उद्योग आदि के विनियामक पहलुओं में उसके प्रयोगों को बढ़ावा देती है।

x) प्रशासन समिति :

इस समिति ने श्री जे. एस. सालुंके की अध्यक्षता में काम किया और कई किस्म के प्रशासन संबंधी मुद्दों पर विचार किया, जैसे-यात्रा-खर्चों की हकदारी तथा समितियों के अध्यक्षों एवं संकाय सदस्यों तथा बैठकों, सेमीनारों एवं कार्यशालाओं के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के होटल में ठहरने के प्रभारों, सदस्यता शुल्क, अभिदान शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा सदस्यों, आदि से चेक द्वारा अध्ययन सामग्री प्रभारों के संबंध में राशियां स्वीकार करना।

xi) अन्य समितियां :

निवेश समिति ने डा. आर. कन्नन की अध्यक्षता में काम किया और भारतीय बीमांकिक सोसाइटी/भारतीय बीमांकक संस्थान की निधियों के निवेश के बारे में समय-समय पर सलाह दी। बीमांकक इंडिया समिति ने श्री जी. एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में काम किया। इसने बीमांकक इंडिया मैगजीन के मासिक अंक प्रकाशित किए।

xii) अनुशासनिक अधिकरण /समिति :

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

1. श्री न्यायमूर्ति एम.एस.राणे
2. श्री एम. जी. दीवान
3. श्री टी. एस. विश्वनाथ
4. श्री देवव्रत बसु

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 26 के अनुसार एक अनुशासनिक समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।

सामान्य साधारण बैठक

इस अवधि में कोई भी सामान्य साधारण बैठक नहीं की गई।

आभार

भारतीय बीमांकक संस्थान का स्टाफ निरंतर कठोर परिश्रम करता रहा और सतत बढ़ रहे कार्यभार के साथ कदम-से-कदम मिलाते हुए उच्च स्तर की वचनबद्धता का उसने प्रदर्शन किया।

बोर्डों तथा समितियों के विभिन्न सदस्यों ने पूरे वर्ष-भर अपना योगदान दिया तथा संव्यावसायिकता का अत्यंत उच्च मानदंड अपनी गतिविधियों से प्रकट किया।

परीक्षकों तथा मार्करों ने परीक्षाओं के संचालन में अपना योगदान दिया जिससे एक विश्वसनीय संव्यावसायिक परीक्षा निकाय के रूप में भारतीय बीमांकक संस्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला।

ह./-

(अपठनीय), अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/असा./69 जेडआई/2007]

अनुबंध**भारतीय बीमांकक संस्थान**

भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद् के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।

- 1) हमने 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखों के साथ-साथ 31 मार्च, 2007 को भारतीय बीमांकक संस्थान, मुंबई का संलग्न तुलनपत्र इसके साथ दिया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
- 2) हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारी के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन के साथ शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3) हम रिपोर्ट करते हैं कि -

- क) हमें वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में बीमांकक अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखे रखे गए हैं।
- ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे खाता-बहियों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे संगत लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त लेखे तथा उनके संबंध में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित ये लेखे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

i) 31 मार्च, 2007 को कार्यों की स्थिति के तुलनपत्र के बारे में तथा

ii) 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता वाले आय एवं व्यय लेखे के विषय में।

स्थान : मुंबई

दिनांक 09.08.2007

मुहर

कृते सारथ एवं एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

हस्ता/-

आर. लक्ष्मीराव

भागीदार

एम सं. एफ-29081

31 मार्च, 2007 को तुलनपत्र

09.11.06 को	निधियां एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.07 को	9.11.06 को	संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची	31.03.07 को
24,646,182.12	पूँजी एवं आरक्षित निधियां	"क"	25,262,931.29	2,335,692.92	अचल परिसंपत्तियां	"अ"	2,566,631.43
1,409,489.39	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियां	"ख"	1,380,100.97	40,730,806.00	निवेश	"घ"	49,330,806.00
11,306,269.65	उद्दिष्ट धर्मादा निधि	"ग"	15,303,703.46		चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :		
1,465,090.08	अन्य उद्दिष्ट निधियां	"घ"	1,482,189.49	3,939,908.15	क) नकदी एवं बैंक शेष	"छ"	1,603,953.37
3,361,559.33	चालू देयताएं	"ड"	5,894,912.52	342,413.25	ख) विविध देनदार	"ज"	354,016.25
8,230,183.48	भारतीय बीमांकिक सोसाइटी - रुग्णता और रुग्णावस्था अनुसंधान संस्थान (एमएमआरआई)	"डक"	8,456,585.69	3,069,953.73	ग) ऋण एवं अग्रिम	"झ"	3,923,016.37
50,418,774.05			57,780,423.42	50,418,774.05			57,780,423.42

लेखों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियां "न"

सम संख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सारथ एवं एसोसिएट्स

कृते भारतीय बीमांकिक संस्थान

सनदी लेखाकार

हस्ता/-

आर. लक्ष्मीराव
भागीदार

एम सं. एफ-29081

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09-08-2007

हस्ता/-

जी.एन. अग्रवाल
अध्यक्ष

हस्ता/-

के. एस. गोपालकृष्णन
उपाध्यक्ष

हस्ता/-

हीरक बसु
मानद सचिव

आय एवं व्यय लेखे

31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के लिए

समाप्त अवधि	व्यय	अनुसूची	समाप्त अवधि	समाप्त अवधि	आय	अनुसूची	समाप्त अवधि
09.11.06			31.03.2007	09.11.2007			31.03.2007
425,244.84	स्थापना खर्चे	"ट"	340,698.50	1,241,803.76	निवेश पर आय	"ण"	1,130,180.42
11,401,037.85	संस्थान की वस्तुओं पर किए गए खर्चे	"ठ"	6,595,585.23		बचत बैंक खाता पर		
	लेखापरीक्षा शुल्क				बैंकों तथा सार्वजनिक निगमों के यहां मीयादी जमा		
39,284.00	आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क		28,060.00	339,489.36	घटाइए : विशिष्ट निधियों को अंतरित	"ड"	165,507.99
16,854.00	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		16,854.00	902,314.40			964,672.43
295,301.90	मूल्यहास	"ज"	258,844.53	10,732,637.00	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क	"त"	4,992,947.37
4,456,567.81	अधोनीत शेष		1,049,697.54	2,574,875.00	सदस्यों का अंशदान :	"थ"	763,590.00
				2,237,700.00	सेमिनार शुल्क	"द"	1,489,030.00
				187,564.00	अन्य आय	"ध"	79,500.00
18,634,290.40	योग		8,289,739.80	18,634,290.40	योग		8,289,739.80
32,603.52	अवधि-पूर्व मदें	"व"	378561.26	4,456,567.81	अधोनीत शेष		1,049,697.54
4,423,964.29	सामान्य निधि को अंतरिक अवधि के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता		671,136.28				
4,456,567.81			1,049,697.54	4,456,567.61			1,049,697.54

लेखों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियां "न"

कृते सारथ एवं एसोसिएट्स

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

सनदी लेखाकार

हस्ता/-

आर. लक्ष्मीराव

भागीदार

एम सं. एफ-29081

मुहर

हस्ता/-

जी.एन. अग्रवाल

अध्यक्ष

हस्ता/-

के. एस. गोपालकृष्णन

उपाध्यक्ष

हस्ता/-

हीरक बसु

मानद सचिव

31.03.2007 को तुलनपत्र की अनुसूची

09.11.2006 को	ब्योरे	31.03.2007 को	31.03.2007 को
अनुसूची क	पूँजी तथा आरक्षित निधियां		
	क) पूँजी		
	निम्नलिखित द्वारा दान की गई पूँजी :		
325000.00	i) साधारण बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष	325000.00	
500000.00	ii) साधारण भारतीय बीमा निगम	500000.00	
151270.00	iii) अन्य निधियां	151270.00	
976270.00	09.11.2006 को शेष \leftarrow 31 मार्च \rightarrow 2007	976270.00	
	ख) सामान्य आरक्षित निधियां		
21009502.46	31.03.2006 को शेष \leftarrow 9 नवंबर \rightarrow 2006	23669912.12	
4423964.29	जोड़िए : आय तथा व्यय लेख से अंतरित	671136.28	
0.00	घटाइए : जीसीए (अनुसूची-ख (v)) में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार	1137.11	
148.81	घटाइए : प्रोफेसर जी.एस.दीवान स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि (अनुसूची ख (क))	53250.00	
1763405.82	घटाइए : बीमांकक मैगजीन निधि (अनुसूची ट (ख))	0.00	
23669912.12	09.11.2006 को शेष \leftarrow 31 मार्च \rightarrow 2007	24286661.29	
<u>24645182.12</u>			<u>25262931.29</u>

अनुसूची क. (क)(iii)

निधियों का ब्योरा (अन्य)

माह एवं वर्ष	नाम	राशि
12 अगस्त 95	मेसर्स थानावाल कंसल्टेंसी सर्विस	50000.00
12 दिसंबर 95	श्री डी. बसु	1000.00
27 दिसंबर 95	श्री एम. सी. चक्रवर्ती	10000.00
17 जनवरी 96	श्री एस. रामास्वामी	1000.00
23 जनवरी 96	श्री एम.एस. वेंकटरमन	2000.00
1 फरवरी 96	श्री एस. पी. सूबेदार	2500.00
23 फरवरी 96	श्री डी. के. लोड्या	1000.00
26 फरवरी 96	श्री जे. एल. स्मित	2500.00
19 मार्च 96	श्री एच. एल. भाटिया	10000.00
19 मार्च 96	श्री बी. पी. गुप्त	6550.00
08 मई 96	श्री के. वी. वाड़. शास्त्री	1000.00
16 मई 96	सुश्री अर्चना त्रिपाठी	300.00
21 मई 96	श्री एस. एन. नारायणन	3320.00
08 जुलाई 96	श्री डी. के. पंडित	10000.00
21 अगस्त 96	श्री एम. वीराबद्रियन	1000.00
5 दिसंबर 96	श्री वी. एल. सप्रे	5000.00
13 दिसंबर 96	श्री बी. पी. गुप्त (एल.एम.)	10500.00
31 मार्च 96	श्री ए. आर. प्रभु	1000.00
03 अप्रैल 96	श्री डी. बसु	100.00
15 मई 96	श्री टी. एस. स्वामीनाथन	25000.00
25 जून 96	मेसर्स थानावाला कंसल्टेंसी सर्विस	7500.00
		151270.00

09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
अनुसूची ख	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियाँ :		
	क) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक इनाम/पुरस्कार निधि : (सर्वोत्तम वीमांकिक पेपर एवं विषय एसए2 के लिए)		
7907.93	31.03.2006 को शेष	0.00	
193.26	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
148.81	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित राशि	53250.00	
8250.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम	53250.00	
0.00	09.11.2006 को शेष	0.00	0.00
	ख) प्रोफेसर (दिवंगत) जी. एस. दीवान 100 वीं वर्ष गांठ स्मारक शिक्षा निधि (आर. एम. मेहता द्वारा दिया गया दान)		
153771.52	31.03.2006 को शेष	157529.44	
3757.92	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	1838.56	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
157529.44	09.11.2006 को शेष	159368.00	159368.00
	ग) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (अनुसंधान परियोजना के लिए)		
139509.14	31.03.2006 को शेष	142918.51	
3409.37	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	1668.04	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
142918.51	09.11.2006 को शेष	144586.55	144586.55
	घ) प्रोफेसर दीवान जन्म शती शिक्षा निधि (विषय सीटी 8 के लिए)		
132677.56	31.03.2006 को शेष	135919.98	
3242.42	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	1586.35	
2000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	
2000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	2000.00	
135919.98	09.11.2006 को शेष	135506.33	135506.33
	ड) के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 1 के लिए)		
13594.39	31.03.2006 को शेष	13426.62	
332.22	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	156.70	
500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	500.00	
13426.61	09.11.2006 को शेष	13083.32	13083.32
	च) एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)		
31432.01	31.03.2006 को शेष	32200.16	
768.15	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	375.82	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	500.00	
32200.16	09.11.2006 को शेष	32075.98	32075.98
	छ) शांति न्यास धर्मादा निधि : (सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान लेख के लिए)		
163439.65	31.03.2006 को शेष	167433.85	
3994.20	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	1954.16	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	8500.00	
167433.85	09.11.2006 को शेष	160888.01	160888.01
	ज) आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)		
15133.18	31.03.2006 को शेष	14253.01	
369.83	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित व्याज (अनुसूची (ड)/(क))	166.35	
1250.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	1250.00	
14253.01	09.11.2006 को शेष	13169.36	13169.36
663661.56	अग्रणीत शेष		658677.55

09.11.06 को	ज्योरे	अग्रणीत रोष	31.03.07 को	31.03.07 को
663681.56				658677.55
		झ) छप्पू राय छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 2 के लिए)		
19866.86	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	19102.37	
485.51	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		222.95	
1250.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		750.00	
19102.37	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	18575.32	18575.32
		ज) पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 8 के लिए)		
20127.93	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	19869.82	
481.89	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		231.91	
750.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		8.00	
19869.82	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	20101.73	20101.73
		ट) कनाका जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (सफल एंजलिस्ट तथा फेलो के लिए)		
207284.00	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	212349.68	
5065.68	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		2478.38	
8.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		0.00	
212349.68	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	214828.06	214828.06
		ठ) के.ए.पंडित स्मारक इनाम निधि : (विषय एसटी 4 के लिए)		
78262.78	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	79175.39	
1912.61	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		924.07	
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		1000.00	
79175.39	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	79099.46	79099.46
		ड) के.पी. शर्मा इनाम निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)		
32940.67	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	32745.69	
805.02	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		382.18	
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		1000.00	
32745.69	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	32127.87	32127.87
		ड) जनार्दन पुंडलिक नेसरकर इनाम निधि : (विषय एसटी 2 के लिए)		
26320.86	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	25964.10	
643.24	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		303.03	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त		0.00	
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		0.00	
25964.10	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	26267.13	26267.13
		ण) प्रोफेसर आर.एन.जोशी इनाम निधि : (विषय सीटी 7 के लिए)		
33019.00	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	33325.93	
808.93	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		388.95	
500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		500.00	
33325.93	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	33214.68	33214.68
		त) पीटर आर्कर अनुसंधान निधि : (जीवन बीमा के लिए)		
12593.90	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	12901.67	
307.77	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		150.58	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		0.00	
12901.67	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	13052.25	13052.25
		थ) पीटर आर्कर इनाम निधि (विषय एसटी 3 के लिए)		
34223.13	31.03.2006 को रोष	← 9 नवंबर → 2006	34059.48	
836.36	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ड)(क))		397.52	
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		1000.00	
34059.48	09.11.2006 को रोष	← 31 मार्च → 2007	33457.00	33457.00
1138175.70		अग्रणीत रोष		1129401.25

09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
1133175.76	अग्रणीत रोष		1129401.25
	द) जे. आर. जोशी इनाम निधि (विचय सीए 3 के लिए)		
28372.68	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	28066.08
683.38	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		327.57
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		1000.00
28066.08	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	27393.63
	घ) के. एस. गोपालकृष्णन तथा सिवाकन खान इनाम निधि (विचय एसटी 5 के लिए)		
35300.09	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	35162.77
662.68	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		410.39
1000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		1000.00
35162.77	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	34573.16
	न) दिवंगत मीना सिधवाणी बीनांकन शिक्षा निधि (नए एफएएसआइ को पुरस्कार के लिए)		
48719.50	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	49910.12
1100.62	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		582.52
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		6978.00
49910.12	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	43518.64
	प) दिवंगत आर. एच. मेहता स्मारक निधि		
45906.07	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	47027.94
1121.67	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		548.87
0.09	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त		0.00
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		0.00
47027.94	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	47576.81
	क) जोशीए में विशेष महत्त्व के पेश के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार		
13376.07	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	13702.96
326.89	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		159.93
0.00	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित		1137.11
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		15000.00
13702.96	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	0.00
	ब) दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि (प्रतिवर्ष सर्वोत्तम छात्रा के लिए)		
100000.00	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	102443.84
2443.84	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रि ब्याज (अनुसूची (ड)(क)		1195.65
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम		6000.00
102443.84	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	97639.49
1409489.39	योग		1380100.97

89.11.86 को	ब्योरे		31.83.87 को	31.03.07 को
अनुसूची ग	उद्दिष्ट धर्मादा निधियां			
	क) स्विस री.			
98148.79	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	98498.51	
2349.72	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		1149.60	
0.00	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने पर व्यय		0.00	
98498.51	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	99648.11	99648.11
	ख) स्विस री अनुसंधान : (फनीचर)			
271880.89	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	278525.21	
6644.32	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		3250.73	
0.00	घटाइए : माइयुलर फनीचर खरीदने पर व्यय		0.00	
278525.21	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	281775.94	281775.94
	ग) स्टैंडर्ड लाइफ :			
232406.91	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	238086.55	
5879.64	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		2778.76	
0.00	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद		0.00	
238486.55	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	248865.31	248865.31
	घ) स्टैंडर्ड लाइफ (फनीचर)			
471547.11	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	483070.94	
11523.84	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		5638.04	
0.00	घटाइए : माइयुलर फनीचर खरीदने पर व्यय		0.00	
483078.94	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	488708.98	488788.98
	ङ) प्रूवेनियल कार्पोरेशन एशिया लि. :			
1583414.92	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	1622315.87	
38700.95	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		18934.43	
0.00	घटाइए : उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा तीन या उससे अधिक विषयों में एक बार में ही पास करने के लिए दिया गया		0.00	
1622315.87	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	1641250.30	1641250.38
	च) एचडीएफसी :			
424882.75	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	435378.87	
10386.12	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		5081.41	
0.00	घटाइए : बीमाकिक डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए दिया गया।		0.00	
435378.87	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	440460.28	448460.28
	छ) सीपीसी/अनुसंधान :			
709065.20	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	726393.59	
17318.39	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		8477.91	
8.00	घटाइए : खर्चों को पूरा करने के लिए एसआइ को अंतरित ब्याज		0.00	
726393.59	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	734871.50	734871.50
	ज) बीमाकिक भारत निधि (गृह पत्रिका) :			
(1734887.82)	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	0.00	
96442.00	जोड़िए : पिछले वर्ष के एमएमआरआई खाते से प्राप्य राशि		0.00	
1783445.82	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित		0.00	
125040.00	घटाइए : आरक्षित निधि में ली गई अग्रिम रूप में पिछले वर्ष विज्ञापन की राशि		0.00	
0.00	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	0.00	0.00
	झ) जीसीए तथा अनुसंधान निधि :			
5167149.55	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	5274266.44	
(31954.00)	जोड़िए : 8वीं एवं 9 वीं जीसीए तथा 9वीं जीसीए का अधिशेष		3865975.70	
128246.89	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रिट ब्याज (अनुसूची (ड)(ख))		61557.19	
0.00	जोड़िए : 6वीं जीसीए में रात्रिमोज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए म्यूनिख री से प्राप्त राशि		0.00	
(12784.00)	घटाइए : 8वीं जीसीए तथा भवन निर्माण निधि को अंतरित अनुसंधान निधि अधिशेष का 40% (अनुसूची ग (अ))		1546198.28	
5274266.44	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	7855109.05	7655109.85
9156535.98	अग्रानीत शेष			11582889.46

09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
8156335.98	अग्रणीत रोष		11582689.46
	उद्दिष्ट धर्मादा निधियाँ :		
	अ) भवन निर्माण निधि :		
2119926.11	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	2149733.67
(12780.00)	जोड़िए : जीसीए तथा अनुसंधान निधि से अंतरित (8 वीं जीसीए का 40% अनुसूची ग (ख))		1546190.28
51587.56	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रल ब्याज (अनुसूची ड)(ख)		25090.04
2149733.67	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	3721013.99
11306269.65		योग	15303703.46
09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
	अनुसूची घ		
	अन्य उद्दिष्ट निधियाँ :		
	क) भारतीय एलआइसी :		
794944.82	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	814371.96
19427.14	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रल ब्याज (अनुसूची ड)(ग)		9504.73
0.00	घटाइए : आय-व्यय खाते को अंतरित		0.00
814371.96	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	823876.69
	ख) आइसीआईसीआई :		
829695.00	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	645083.71
15388.71	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रल ब्याज (अनुसूची ड)(ग)		7528.92
8.00	घटाइए : खर्चों को पूरा करने के लिए एएसआई को अंतरित ब्याज		0.00
645083.71	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	652612.63
	ग) कर्मचारी राहत निधि :		
5500.00	31.03.2006 को रोष	9 नवंबर 2006	5634.41
75402.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		8.00
134.41	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिट्रल ब्याज (अनुसूची ड)(ग)		65.76
75402.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दी गई राशि		8.00
5634.41	09.11.2006 को रोष	31 मार्च 2007	5700.17
1465090.08	योग		5700.17
			1482189.49
09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
	अनुसूची छ		
	धालू देयताएं		
	विशेष लेनदार		
2496.00	दुर्लभ इंटरप्राइसेस		5279.00
30.00	जेएमडी कम्प्यूटेशनल नेटवर्क		0.00
0.00	डिलक्स स्टेशनरी एंड जेराक्स		0.00
6.00	लिबर्टी इंटरप्राइज		0.00
0.00	प्रिंटानिया आफसेट प्राइ. लि.		1582
2526.00			8861.00
	अन्य देयताएं		
203800.25	प्रतिदेय जमाप्राप्ति (एएसआई के सदस्य)		308009.25
37602.00	उपदान देयता (बीमागत मूल्य)		23944.00
400.00	अग्रिम प्राप्त-पीपीएफ में अंशदान (स्टॉक)		3600.00
505000.00	अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि		4846031.84
50000.00	आरजीए-आरई (विकासन आय)	50,000.00	
30000.00	म्युनिख री (विकासन आय)	2,85,168.00	
200000.00	स्टॉकिस्टिक मार्केटिंग परेक्षण शुल्क		
225000.00	9वीं जीसीए के लिए प्रायोजकता राशि		
	परिक्षा शुल्क मई 2007	44,39,092.84	
	विलंब परिक्षा शुल्क मई 2007	71,771.00	
33100.75	प्राप्त अंशदान शुल्क। अंतिम वर्ष 2007-08 के लिए अग्रिम		225475.75
3400.00	प्राप्त अंशदान शुल्क। अंतिम वर्ष 2008-09 के लिए अग्रिम		8725.00
	प्राप्त अंशदान शुल्क। अंतिम वर्ष 2009-10 के लिए अग्रिम		150.00
0.00	संविदाकारों की देय राशि पर छूट पर कटौती		241.00
1889.00	देय सेवा प्रभारों पर छूट पर कटौती		0.00
400.00	देय संव्यवस्थापन कर		0.00
2573441.33	बकाया देयता		471874.68
3359033.33			5888051.52
3361559.33	योग		5894912.52

अनुसूची ड(क) एसएसआई-एमएमआईबी निधि अंशदाताओं की सूची

नाम	तारीख	राशि
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण	6 अक्टूबर 03	500000.00
एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लि.	6 अक्टूबर 03	500000.00
एवीवा जीवन बीमा कं. लि.	6 अक्टूबर 03	500000.00
बिडला सनलाइफ बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500000.00
एएमपी सनमार बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500000.00
आइएनजी ब्यास जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500000.00
एलीएज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500000.00
आइसीआईआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कं. लि.	13 अक्टूबर 03	500000.00
टाटा एआईजी जीवन बीमा कंपनी लि.	14 अक्टूबर 03	500000.00
ओएम कोडक महिन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500000.00
मैक्स न्यूयाक जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500000.00
मेट लाइफ इंडिया बीमा कं. लि.	21 नवंबर 03	500000.00
भारतीय जीवन बीमा	22 नवंबर 03	500000.00
		6500000.00

	क) एसएसआईआइ (पहले का नाम एसएमआईबी)		
7159971.00	31.03.2006 को शेष	9 नवंबर → 2006	8230183.48
208323.48	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची ड/ग)		226402.21
1000000.00	जोड़िए : एसएसआई का अंशदान		0.00
138111.00	घटाइए : एसएसआई द्वारा किए गए खर्च		0.00
8230183.48	09.11.2006 को शेष	31 मार्च → 2007	8456585.69

09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
अनुसूची च	निवेश		
	क) यूएस 64 बांड		
54000.00	8.75% कर मुक्त यूएस 64 बांड (540 बांड)	54000.00	
70000.00	8.75% कर मुक्त यूएस 64 बांड (700 बांड)	70000.00	
80000.00	8.75% कर मुक्त यूएस 64 बांड (800 बांड)	80000.00	
	ख) निम्नलिखित के बांडों में :		
2000000.00	आइसीआईआई फ्लेक्सी बांड	2000000.00	
1000000.00	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बांड	1000000.00	
1000000.00	केरल पावर फाइनेंस निगम लि.	1000000.00	
	ग) निम्नलिखित के बर्तमान बीमादी जमा राशियाँ में :		
16200000.00	एचडीएफसी लि.	23200000.00	
416000.00	बैंक ऑफ इंडिया, नरोमन प्वाइंट	3016000.00	
1065426.00	यूटीआई बैंक, फोर्ट, मुंबई	1065426.00	
1385380.00	कापौरेशन बैंक, मुंबई	1385380.00	
50000.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चवगेट	50000.00	
100000.00	आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस	100000.00	
1000000.00	तमिलनाडु पावर फाइनेंस निगम लि.	1000000.00	
7310000.00	एचडीएफसी लिमि. (एसएसआई-एमएमआईबी)	8310000.00	
2000000.00	कोटक महिंद्रा बैंक	2000000.00	
	घ) निम्नलिखित के म्युचुअल फंडों में :		
2000000.00	फ्रैंक्लिन टेम्पलीटन	2000000.00	
1000000.00	एचडीएफसी म्युचुअल फंड	1000000.00	
2000000.00	आइसीआईआई प्रूडेंशियल	2000000.00	
40730808.00		49330808.00	49330808.00
		योग	49330808.00

08.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
अनुसूची छ	नकदी और बैंक रोप		
	क) नकदी रोप		
2825.00	1) हाथ नकदी	9794.63	
10000.00	2) नकदी (साधारण)	5600.00	
	ख) निम्नलिखित के बहर बचत खाते में बैंक रोप		
390445.58	1) बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट (खाता सं.4553)	34481.58	
41258.12	2) बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फॉर्ट (खाता सं.57127) डुक और ड्रफ्ट	(25963.90)	
2401237.41	3) बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फॉर्ट (खाता सं.56426)	1427919.11	
46763.04	4) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चर्चगेट (खाता सं.9069)	48946.04	
1047359.00	5) बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, पोट (खाता सं.8725) (एएसआइ-एमएमआईबी)	102998.99	
3839988.15		1663953.37	1663953.37
09.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
अनुसूची छ	विभिन्न देनदार		
10000.00	क) यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेंस के. लि.	10000.00	
20000.00	ख) फर्स्ट एपेक्स	20000.00	
50000.00	ग) हेनोवर री	50000.00	
30000.00	घ) डी. डब्ल्यू. सिम्पसन	30000.00	
27413.25	ङ) वाटसन व्याट इंडिया लि.	57413.25	
75800.00	च) आरविन रोड्स	49440.00	
0.00	छ) जीएएपीएस	30000.00	
100000.00	ज) इएचबी केसल्टेसी	59663.00	
0.00	झ) जनरल कोलॉज री	30000.00	
30000.00	ञ) एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.00	
0.00	ट) रिलायंस लाइफ	17500.00	
342413.25		354016.25	354016.25
342413.25		योग	354016.25
08.11.06 को	ब्योरे	31.03.07 को	31.03.07 को
अनुसूची झ	ऋण और अग्रिम		
	क) ऋण और अग्रिम		
849620.50	बीबीडी जमा राशियों पर उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं (बैंकों के पास)	877357.19	
1540350.18	बीबीडी जमा राशियों पर उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं (सार्वजनिक निगम)	1945406.28	
531849.86	बचत योजनाओं पर काटा गया कर (एएसआइ-कार्यलय)	794339.75	
	कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 (5207/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 (8212/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2003-2005 (106918/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2005-06 (117084/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 (127439.20 रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2007-08 (388806.55 रुपए)		
	बचत योजनाओं पर काटा गया कर (दिल्ली सेंटर)		
	कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 (8830/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 (7301/- रु.)		
	कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 (24562/- रु.)		
13544.00	टेलीफोन जमा राशि	13544.99	
1000.00	विद्युत जमा राशि	1000.00	
10000.00	अव्यय सम्मेलन	10000.00	
22072.45	पूर्वदत्त खाते (एएसआइ परिसरों के लिए न्यू इंडिया इन्सुरेंस आग बीमा प्रीमियम)	386307.40	
	ख) अन्य अग्रिम		
21000.00	स्टॉक ऋण	79090.06	
3500.00	आइएमसी से प्राप्य राशि (हाल बुकिंग के लिए जमानत जमा राशि)	500.00	
15581.75	वाटसन व्याट से प्राप्य राशि	15581.75	
261455.50	अग्रिम के रूप दी गई राशि		
3069953.73		3923916.37	3923916.37

31.03.2007 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय से संबंधित अनुसूची

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	व्यय	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची ट	स्थापना खर्च		
72822.43	क) बैठक पर हुए खर्च	144875.27	
129594.89	ख) वेतन (बोनस/अनुग्रह अनुदान/उपदान/छुट्टी नकदीकरण सहित)	89620.65	
66402.00	ग) छपाई तथा लेखन सामग्री	24341.20	
48130.14	घ) डाकटिकट, कूरियर, तार तथा टेलीफोन प्रभार	15083.32	
82143.55	ड) कार्यालय-किराया	51053.15	
24352.12	च) विद्युत प्रभार	13906.56	
657.41	ड) वाहन	375.45	
1142.30	ज) बैंक प्रभार	1442.90	340698.50
425244.84			
अनुसूची ठ	न्यास के उद्देश्य से संबंधित खर्च		
655401.87	क) बैठक पर हुए खर्च	1303877.44	
1166353.98	ख) वेतन (बोनस/अनुग्रह अनुदान/उपदान/छुट्टी नकदीकरण-सहित)	806585.85	
597618.00	ग) छपाई तथा लेखन सामग्री	219070.80	
433171.25	घ) डाकटिकट, कूरियर तथा टेलीफोन प्रभार	135749.84	
5916.64	ड) वाहन	3379.05	
3200590.53	च) परीक्षा संचालन खर्च	0.00	
952926.25	छ) बीमाकिक शिक्षा सेवा : अध्ययन सामग्री	1538721.91	
1620201.50	ज) सेमीनार खर्च	370378.81	
148272.40	झ) मरम्मत एवं रखरखाव	38986.00	
10280.70	ञ) बैंक प्रभार	12986.10	
9319.90	ट) बीमाकिक डायरेक्टरी की छपाई	746106.00	
11100.85	ठ) आग बीमा प्रीमियम	6545.40	
65653.00	ड) संव्यवसाय प्रभार	11236.00	
24887.00	ड) परीक्षा समिति सदस्यों/समिति सदस्यों की यात्रा के खर्च	21084.00	
0.00	ण) पूर्त आयुक्त को दिया गया अंशदान	190930.75	
33981.25	त) कार्यालय तथा सामान्य खर्च	5546.00	
15000.00	थ) अभिदान शुल्क (एनआइए)	0.00	
90841.00	द) अभिदान शुल्क (आईएए)	0.00	
15120.00	ध) अभिदान शुल्क (स्कैंडिनेवियन बीमाकिक जर्नल)	0.00	
38282.83	न) स्टाफ कल्याण	60530.37	
14408.49	प) चुनाव खर्च	0.00	
(1671.50)	फ) विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	1121.00	
106808.00	ब) छात्र हस्त पुस्तिका छपाई	0.00	
1689.00	भ) जुमाना (संव्यवसाय कर)	0.00	
739291.94	म) कार्यालय किराया	459478.35	
219169.07	य) विद्युत प्रभार	125159.03	
2547.00	र) विज्ञापन खर्च	2548.00	
1223926.90	ल) बीमाकिक इंडिया मैगजीन खर्च	503603.18	
0.00	व) विधिक शुल्क	27060.00	
0.00	श) 9वीं जीसीए खर्च	0.00	
0.00	ष) दाखिला खर्च	624.00	
0.00	स) बीमा प्रभार	3682.75	
0.00	ह) अभिदान खर्च	594.60	
11401037.85			6595585.23

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची ड	विशिष्ट निधियों को आबंटित ब्याज		
193.26	क) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक इन्सालपुरस्कार निधि : (सर्वोत्तम बीमांकिक पेपर एवं विषय एसए2 के लिए)	0.00	
3757.92	ख) प्रोफेसर (दिवंगत) जी.एस.दीवान 100 वीं वर्ष गाँठ (स्मारक शिक्षा निधि (आर.एम.मेहता द्वारा दिया गया दान)	1838.56	
3409.37	ग) प्रोफेसर जी.एस.दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (अनुसंधान परियोजना के लिए)	1668.04	
3242.42	घ) प्रोफेसर जी. एस. दीवान जन्म शती शिक्षा निधि 8 (विषय सीटी 8 के लिए)	1586.35	
332.22	ङ) के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति (विषय सी के लिए)	156.70	
768.15	च) एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि (विषय सीटी 3 के लिए)	375.82	
3994.20	छ) शांति न्यास धर्मादा निधि (सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान/लेख के लिए)	1954.16	
369.83	ज) आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 5 के लिए)	166.35	
485.51	झ) छप्पू राम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 2 के लिए)	222.95	
491.89	ञ) पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 6 के लिए)	231.91	
5065.68	ट) कनाडा जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (सफल एसोसिएट्स तथा फेलो के लिए)	2478.38	
1912.61	ड) के.ए.पंडित स्मारक इनाम निधि (विषय एसटी 4 के लिए)	924.07	
805.02	ढ) के. पी. शर्मा इनाम निधि (विषय सीटी 4 के लिए)	382.18	
643.24	ण) जगदीन पुंडलिक नेहरूकर इनाम निधि (विषय एटी 2 के लिए)	303.03	
806.93	त) प्रोफेसर आर.एम.जोशी इनाम निधि (विषय सीटी 7 के लिए)	388.95	
693.38	थ) जे. आर. जोशी इनाम निधि (विषय सीटी 3 के लिए)	327.57	
836.36	द) पीटर आकर अनुसंधान निधि (जीवन बीमा के लिए)	397.52	
307.77	ध) पीटर आकर इनाम निधि (विषय एसटी 3 के लिए)	150.58	
862.68	घ) के. एस. गोपालकृष्णन एवं सियाकत खान इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)	410.39	
2349.72	म) स्विस री (पुस्तकालय आधारिक संरचना)	1149.60	
5679.64	न) स्टैंडर्ड लाइफ निधि	2778.76	
38700.95	प) यूनिवर्सल निगम निधि (कोथिंग क्लार्क तथा परीक्षक सेमीनार)	18934.43	
10386.12	ब) एचडीएफसी (बीमांकिक डायरेक्टरी)	5081.41	
17328.39	म) सीपीसीए अनुसंधान निधि	8477.91	
126276.89	न) जीसीए एवं अनुसंधान निधि	61557.19	
51587.56	य) भवन निर्माण निधि	25090.04	
19427.14	र) भारतीय जीवन बीमा निगम (परिपोषित एवं इनाम)	9504.73	
1190.62	ल) दिवंगत मीना सिधवाणी बीमांकिक शिक्षा निधि	582.52	
6644.32	व) स्विस री (फर्नीचर)	3250.73	
11523.84	श) स्टैंडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	5638.04	
15388.71	ष) आईसीआईसीआई	7528.92	
1121.87	स) दिवंगत आर.एम.मेहता स्मारक निधि	548.87	
326.89	ह) जीसीए में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अच्छा का पुरस्कार	159.93	
2443.84	अ) दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि	1195.65	
134.42	त्र) कर्मचारी राहत निधि	65.76	165507.99
339489.36			

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची ड	अवधि पूर्व मदें		
32603.52	वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक के लिए अंशदानों पर सफल वार्षिक आय प्रभाय के संबंध में पूर्व आयुक्त को 2 प्रतिशत अंशदान	378561.26	
32603.52		378561.26	378561.26

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची ७	निवेश ब्याज		
	क) बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज		
34414.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी.एन.रोड -56426	29884.00	
5558.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी.एन.रोड -57127	3327.00	
780.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - चर्चगेट -9080	817.00	
6707.00	बैंक ऑफ इंडिया - एन. पी. 4553	7957.00	41985.00
	ख) बैंकों के यहां मीयादी जमाबाराशि पर प्राप्त ब्याज		
28004.67	बैंक ऑफ इंडिया (नरोमन पार्क)	20518.94	
66118.45	कार्पोरेशन बैंक	38282.08	
1984.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (चर्चगेट)	1016.00	
43284.11	यूटीआई बैंक (पी.एम.रोड, फोर्ट)	30392.13	
29917.80	एचडीएफसी बैंक	0.00	
649620.50	उपचित ब्याज	677357.19	767566.34
	ग) अन्य निवेशों से ब्याज		
6885.00	यूटीआई -यूएस 64	6885.00	
0.00	आइसीआईसीआई बैंड	53860.82	
191500.00	आइडीबीआई बैंड	144000.00	
624187.30	एचडीएफसी-एसआई	614187.93	
6812.19	आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस निगम लि.	4337.81	
68732.88	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (जीईबी)	43767.00	
59121.92	तमिलनाडु पावर फाइनेंस निगम लि.	85897.15	
67816.44	केरल पावर फाइनेंस निगम लि.	43183.56	
0.00	कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए आय कर वापसी	1867.00	
1540350.18	उपचित ब्याज	1945406.28	2943392.55
2189970.68	घटाइए : विगत वर्ष के लिए किए गए उपचित ब्याज		2622763.47
1241803.76			1130180.42

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची 8	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क		
3996850.00	क) परीक्षा शुल्क	1800.00	
5782687.00	ख) अध्ययन पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री शुल्क	4417977.37	
102800.00	ग) बीमांकिक डाइरेक्टरी/छात्र हस्त पुस्तिका की बिक्री	12270.00	
42800.00	घ) छूट शुल्क	83400.00	
807500.00	ड) बीमांकिक इंडिया मैगजीन आय	477500.00	
10732637.00			4992947.37

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची थ	सदस्यों का अंशदान		
507000.00	i) दाखिला शुल्क	306375.00	
1957206.50	iii) अंशदान शुल्क	404400.00	
109868.50	iii) जुर्माना/विलंब शुल्क	52815.00	763590.00
2574075.00			

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची द	सेमीनार शुल्क		
590000.00	i) इंडिया फेलोशिप सेमीनार शुल्क	130000.00	
0.00	ii) स्वास्थ्य एवं साधारण बीमा (जीआइबी) के बीमाकिक प्रबंध के संबंध में सेमीनार	55630.00	
160200.00	iii) जीवन बीमा के वर्तमान मुद्दे पर (सीआईएलए) सेमीनार शुल्क	0.00	
272000.00	iv) सीए 2 माडलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	
0.00	v) स्टैटिस्टिक माडलिंग वर्कशॉप शुल्क संबंधी सेमीनार	335000.00	
1215500.00	vi) कारबार जागरूकता माड्यूल (बीएएम)	968400.00	1489030.00
2237700.00			

09.11.06 को समाप्त पिछली अवधि	ब्योरे	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि	31.03.07 को समाप्त चालू अवधि
अनुसूची घ	अन्य आय		
23950.00	सदस्यों से प्राप्त डाक प्रभार	28300.00	
6100.00	रद्दी की बिक्री	1200.00	
14.00	विविध शेष पुनरांकन	0.00	
157500.00	व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओपी) शुल्क (नवीकरण एवं न्यू बीमा)	50000.00	79500.00
187564.00			

इनामों तथा छात्रवृत्ति निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान :

अनुसूची ड (क)

इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियाँ	09.11.06 को	ब्याज @3%	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में वृद्धि	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में अदा किया गया	31.03.07 को
दिवंगत मीना सिधवानी बीमाकिक शिक्षा निधि	49910.12	582.52	0.00	6976.00	43516.64
दिवंगत आर.एम.मेहता स्मारक निधि	47027.94	548.87	0.00	0.00	47576.81
जीवन बीमा के लिए पीटर आकेर अनुसंधान निधि	12901.67	150.58	0.00	0.00	13052.25
पीटर आकेर इनाम निधि	34059.48	397.52	0.00	1000.00	33457.00
जीसीए में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार	13702.96	159.93	1137.11	15000.00	0.00
प्रो. जी.एस.दीवान जन्मशती शिक्षा निधि	135919.98	1586.35	0.00	2000.00	135506.34
प्रो. जी.एस.दीवान इनाम स्मारक/ इनाम/पुरस्कार निधि	0.00	0.00	53250.00	53250.00	0.00
प्रो. जी.एस.दीवान स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा	142918.51	1668.04	0.00	0.00	144586.55
के.पी.तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति	13426.60	156.70	0.00	500.00	13083.30
एच.वी.कृष्णमूर्ति इनाम निधि	32200.16	375.82	0.00	500.00	32075.97
शक्ति न्यास धर्मादा निधि	167433.85	1954.16	0.00	8500.00	160888.00
आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा	14253.01	166.35	0.00	1250.00	13169.36
छरूजूराम छात्रवृत्ति धर्मादा	19102.37	222.95	0.00	750.00	18575.32
पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा	19869.82	231.91	750.00	750.00	20101.72
कसाडा लाइफ छात्रवृत्ति निधि	212349.69	2478.38	0.00	0.00	214828.07
के.ए.पंडित स्मारक इनाम निधि	79175.39	924.07	0.00	1000.00	79099.46
के.पी.शर्मा इनाम निधि	32745.69	382.18	0.00	1000.00	32127.87
जर्नादन पुंडलिक नेरुरकर इनाम निधि	25964.10	303.03	0.00	0.00	26267.14
प्रो. आर.एम.जोशी इनाम निधि	33325.93	388.95	0.00	500.00	33214.89
जे.आर.जोशी इनाम निधि	28066.06	327.57	0.00	1000.00	27393.62
दिवंगत जी.एस.दीवान 100वीं वर्षगांठ स्मारक	157529.44	1838.56	0.00	0.00	159368.00
के.एस. गोपालकृष्णन एवं लियाकत खान इनाम निधि	35162.77	410.39	0.00	1000.00	34573.16
दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि	102443.84	1195.65	0.00	6000.00	97639.49
योग	1409489.37	16450.48	55137.11	100976.00	1380100.96

उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान :
अनुसूची ड (ख)

उद्दिष्ट धर्मादा निधि	09.11.06 को	ब्याज @3%	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में वृद्धि	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में अदा किया गया	31.03.07 को
स्टैंडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	483070.94	5638.04	0.00	0.00	488708.98
स्विस री (फर्नीचर)	278525.21	3250.73	0.00	0.00	281775.94
स्वीस री (पुस्तकालय आधारित संरचना)	98498.51	1149.60	0.00	0.00	99648.11
स्टैंडर्ड लाइफ	238086.55	2778.76	0.00	0.00	240865.32
प्रूडेंशियल कापोरेशन एशिया लि.	1622315.87	18934.43	0.00	0.00	1641250.29
एचडीएफसी	435378.87	5081.41	0.00	0.00	440460.28
सीपीडी/अनुसंधान	726393.59	8477.91	0.00	0.00	734871.50
बीमांकक इंडिया मैगजीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीसीए तथा अनुसंधान	5274266.43	61557.19	2319285.42	0.00	7655109.04
भवन निर्माण निधि	2149733.68	25090.04	1546190.28	0.00	3721014.00
योग	11306269.65	131958.11	3865475.70	0.00	15303703.46

अन्य उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए ब्याज प्रावधान
अनुसूची ड (ग)

अन्य उद्दिष्ट	09.11.06 को	ब्याज @3%	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में वृद्धि	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में अदा किया गया	31.03.07 को
भारतीय जीवन बीमा	814371.96	9504.73	0.00	0.00	823876.69
आइसीआईसीआई	845083.71	7528.92	0.00	0.00	852612.63
कर्मचारी राहत निधि	5634.41	65.76	0.00	0.00	5700.17
योग	1465090.08	17099.41	0.00	0.00	1482189.49

भारतीय बीमांकन संस्थान

विभिन्न निधियों के संबंध में ब्याज के लिए प्रावधान हेतु गणना :

परिसंपत्तियाँ	09.11.06 को ए	31.03.07 को बी	ब्याज आइ	(ए+बी)-आइ	[(ए+बी)- आइ]/2	अ=
						(2 x आइ)/[(ए+बी)- आइ]
नकदी तथा बैंक शेष						
(1) हाथ में नकदी						
क) नकदी शेष	12825.00	15594.63	0.00			
(2) बैंक शेष						
क) बैंक ऑफ इंडिया, बचत बैंक खाता सं.56426	2401237.41	1427919.11	29884.00			
ख) बैंक ऑफ इंडिया, बचत बैंक खाता 57127	41258.12	(25983.9)	3327.00			
ग) बैंक ऑफ इंडिया, बचत बैंक खाता 4553(एन.पी)	390445.58	34481.58	7957.00			
घ) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बचत बैंक खाता सं.9080	46783.04	48946.04	817.00			
निवेश						
(1) मीयादी जगाराशियाँ	24216806.00	40126806.00	758057.85			
(2) बॉन्ड एवं प्रतिभूतियाँ तथा म्युचुअल फंडों में	9204000.00	9204000.00	279820.52			
	36313355.15	50631763.37	1079863.37	86065255.15	43032627.58	0.03

- ए = निवेश का 10.11.2006 को अथशेष (+) 10.11.2006 को अथ नकदी बैंक शेष
 बी = निवेश का 10.11.2006 को इति शेष (+) 10.11.2006 को इति नकदी एवं बैंक शेष
 आइ = 10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में निवेश आय (+) 10.11.06 से 31.03.07 की अवधि के लिए उपचित ब्याज
 अ = सभी निधियों के लिए निवेश आय के आबंटन हेतु ब्याज दर
 अ = $(2xg)/[क+ख]-ग]$

ए - 36313355.15

बी = 50831763.37

आइ = 1079863.37

(ए + बी) - आइ = 86065255.15

अ = $2 \times 1/86065255.15$ 3%

ध्यान दीजिए : निधियों में निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर 3% यथानुपात है तथा वार्षिकीकृत आधार पर 7.70% है।

अनुसूची "अ"

अचल परिसंपत्तियां

क्रम सं.	विवरण	मूल्यहास की दर %	सकल स्तक				मूल्यहास			निवल स्तक	
			10.11.06 को	10.11.06 से 31.03.07 तक वृद्धि	10.11.06 से 31.03.07 तक बिक्री/समायोजन	31.3.07 को योग	10.11.06 तक	10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि के लिए	31.03.07 तक	31.03.07 को	09.11.06 तक
1	वाटर प्युरिफायर	25	6890.00	0.00	0.00	6890.00	1854.64	670.12	2524.76	4365.24	5035.36
2	एअर कंडीशनर	25	552492.00	0.00	0.00	552492.00	163855.50	53735.52	217591.02	334900.98	388636.50
3	श्रम सम्मेलन प्रणाली	20	43450.00	0.00	0.00	43450.00	42241.73	1208.27	43450.00	0.00	1208.27
4	नकदी बैंक	10	3549.00	0.00	0.00	3549.00	1932.43	138.07	2070.50	1478.50	1616.57
5	कंप्यूटर	25	12844.00	438833.00	0.00	451677.00	1055.67	82445.21	83500.88	368176.12	11788.33
6	कंप्यूटर प्रिंटर	25	74350.00	52950.00	0.00	127300.00	60681.75	20508.30	81190.05	46109.95	13668.25
7	ईपेसिए एक्स प्रणाली	20	26773.00	0.00	0.00	26773.00	21574.55	2083.16	23657.71	3115.29	5198.45
8	एन्वैरिंग मशीन	10	2495.00	0.00	0.00	2495.00	695.06	97.07	792.13	1702.87	1799.94
9	फर्निचर	10	2517955.16	0.00	0.00	2517955.16	611213.87	97958.81	709172.68	1808782.48	1906741.25
	योग		3240798.16	491783.00	0.00	3732581.18	905105.28	258844.53	1163949.73	2568631.43	2335692.92
	पिछली अवधि		4486291.63	12844.06	0.00	4499135.63	1868140.82	295301.90	2163442.71	2335692.92	2818150.81

अनुसूची "न" : महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा से संबंधित टिप्पणियां

क) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परम्परा :
लेख ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं।
2. ब्याज से आय : निवेशों पर ब्याज की गणना प्रोद्भव आधार पर इस प्रकार के निवेशों को लागू दरों पर की जाती है। विशिष्ट निधियों के उद्दिष्ट निवेशों से आय संबंधित निधियों में जमा कर दी जाती है। उद्दिष्ट न किए गए निवेश से प्राप्त आय आय एवं व्यय खाते जमा कर दी जाती है।
3. निवेश :
निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।
4. अचल परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास :

अचल परिसंपत्तियां अपनी मूल्य लागत पर उल्लिखित की जाती हैं।

9 नवंबर, 2007 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा प्रणाली के अंतर्गत मूल्यहास यथानुपात आधार पर किया जाता है (जैसा अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है)। पिछली अवधि के रूप में मूल्यहास की दरें अपरिवर्तनीय हैं और वे नीचे दिए गए अनुसार हैं:

परिसंपत्ति की किस्ममूल्यहास की दर

वाटर प्रूरीफायर	25%
एअर कंडीशनर	25%
श्रव्य सम्मेलन प्रणाली	20%
नकदी बाक्स	10%
कंप्यूटर	25%
कंप्यूटर प्रिंटर	25%
ईपीबीएक्स प्रणाली	20%
एन्ससिंग मशीन	10%
फर्नीचर	10%

5. विगत वर्षों में अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार, कुल व्यय का 10% अर्थात् बैठक-खर्च, वेतन, छपाई एवं लेखनसामग्री, डाकटिकट, कूरियर, टेलीफोन खर्च, कार्यालय किराया, विद्युत प्रभार, वाहन तथा बैंक प्रभारों को स्थापना व्यय के रूप में माना जाता है तथा शेष 90% को संस्थान के उद्देश्यों पर किया गया खर्च मान लिया जाता है। अन्य खर्चों के संबंध में, यह मान लिया जाता है कि वे संस्थान के उद्देश्य पूर्ति पर पूर्णतः खर्च किए गए हैं (अध्यक्ष द्वारा यथा प्रमाणित)।
6. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के आधार पर स्टाफ उपदान पाने का हकदार है और उपदान देयता तय करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित यथानुपात आधार पर प्रावधान किया गया है।
7. अध्ययन सामग्री प्रकाशन का स्टाक, लेखन सामग्री इत्यादि को लेखों के अपने-अपने व्यय शीर्ष के अंतर्गत खातों में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।
8. निवेश आय का आबंटन निम्नलिखित रीति से किया गया है जिसे अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है तथा लेखापरीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया है:

ए = निवेश का 10.11.2006 को अथशेष (+) 10.11.2006 को अथ नकदी बैंक शेष
बी = निवेश का 10.11.2006 को इति शेष (+) 10.11.2006 को इति नकदी एवं बैंक शेष
आइ = 10.11.06 से 31.03.07 तक की अवधि में निवेश आय (+) 10.11.06 से 31.03.07 की अवधि के लिए उपधित ब्याज
अ = सभी निधियों के लिए निवेश आय के आबंटन हेतु ब्याज दर
अ = $(2 \times \text{आइ}) / (\text{ए} + \text{बी}) - \text{आइ}$

ए = 36313355.15

बी = 50831763.37

आइ = 1079863.37

(ए + बी) - आइ = 86065255.15

अ = 3%

ध्यान दीजिए : निधियों में निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर 3% यथानुपात है तथा वार्षिकीकृत आधार पर 7.70% है।

ख) लेखों के संबंध में टिप्पणियां

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहबद्ध, पुनःक्रमबद्ध तथा पुनः वर्गीकृत किया गया है। पिछली अवधि के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं क्योंकि चालू अवधियों के आंकड़े आलोच्य वर्ष के केवल एक हिस्से के लिए हैं, जो भारतीय बीमांकक संस्थान के निगमित किए जाने की तारीख है, अर्थात् 10.11.06 से 31.03.2007 तक।
2. भारतीय बीमांकक सोसाइटी सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और बंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 दिनांक 09.11.2006 को भंग कर दिया गया तथा भारतीय बीमांकक सोसाइटी की देयताएं 10.11.2006 को भारतीय बीमांकक संस्थान को अंतरित कर दी गईं। बीमांकक अधिनियम, 2006 को 27.08.2006 भारतीय बीमांकक संस्थान को अंतरित कर दी गईं। बीमांकक अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 27.08.2006 को मिली। केंद्र सरकार ने 10.11.06 को यह तारीख इसलिए निश्चित की क्योंकि इस दिन से वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग) की दिनांक 08.11.2006 की अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान लागू हुए।
3. मूल्यहास-सहित आय तथा खर्चों की सभी मदें 01.04.06 से 09.11.06 तक तथा 10.11.2006 से 31.03.2007 यथानुपात आबंटित की गई थीं। 09.11.06 को भारतीय बीमांकक सोसाइटी भंग की गई तथा 08.11.06 को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10.11.06 से भारतीय बीमांकक संस्थान निगमित किया गया है।
4. 31.03.2007 को अनुसूची "ड" के अंतर्गत दर्शाई गई विविध देनदार राशि 354016.25 रुपए है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2007-08 में 158000 रुपए अब तक प्राप्त हो चुके हैं।
5. चूंकि, कतिपय निधियों में अर्थात्, जीसीए [अनुसूची ख (v)] तथा प्रो. जी.एस.दीवान स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधियों [अनुसूची ख (क)] में विशेष महत्त्वपूर्ण पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार, भुगतान के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है, इसलिए उन विशिष्ट निधियों से खर्च किए गए अवशिष्ट खर्च सामान्य निधि खाते [अनुसूची क (ख)] के नामे की गई है।
6. एएसआइ-एमएमआरआइ (पहले एएसआइ-एमएमआइबी नाम से) पर आलोच्य वर्ष के दौरान 226402.21 रुपए का आंशिक ब्याज तुलनपत्र की "डक" अनुसूची के अंतर्गत एएसआइ-एमएमआरआइ खाते में जमा की गई है।

7. आलोच्य वर्ष के दौरान अनुषंगी हितलाभ कर देयता के लिए कोई प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।
8. वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक के लिए अंशदान हेतु प्रभार्य सकल वार्षिक आय के संबंध में पूर्ण आयुक्त को अदा किए गए अंशदान के कारण 378561.26 रुपए अवधि पूर्व मदों में शामिल हैं।
9. लेखों के शेष की पुष्टि : 31.03.07 को लेखों में बैंकों-सहित सभी नामे एवं जमा शेषों के खातों की बहियों के अनुसार हैं और ये पुष्टि तथा खातों के समाधान के अधीन हैं।
10. पहले की भारतीय बीमांकिक सोसाइटी ने आय कर निदेशक (छूट) के कार्यालय में 30.03.2006 को लेखा वर्ष 2005-06 से लेखा वर्ष 2007-08 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) (vi) के अंतर्गत छूट की मंजूरी के लिए फार्म सं.56 डी में एक आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमांकिक संस्थान ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 क) के अंतर्गत छूट मांगी है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 को इस संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए हैं। इसे देखते हुए, समीक्षाधीन अवधि में लेखों के लिए आय-कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कृते सारथ एवं एसोसिएट्स

कृते भारतीय बीमांकिक संस्थान

सनदी लेखाकार

हस्ता/-

आर. लक्ष्मीराव

मुहर

हस्ता/-

जी.एन. अग्रवाल
अध्यक्ष

हस्ता/-

के. एस. गोपालकृष्णन
उपाध्यक्ष

हस्ता/-

हीरक बसु
मानद सचिवभागीदार
एम सं. एफ-29081

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09-08-2007

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.08.2007

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th October, 2007

Report of the Council

The Council has the pleasure to submit its report for the financial year ended 31st March 2007 and activities for the period since last AGM till 31.07.2007.

The provisions of Actuaries Act, 2006 have come into effect from 10th November 2006. As a result of this, the Institute of Actuaries of India is constituted. As such the Actuarial Society of India has been dissolved and all the assets and liabilities of the Actuarial Society of India have been transferred to and vested in the Institute of Actuaries of India.

As per Section 55 of the Actuaries Act, 2006, the Government of India shall make and notify the rules of the Institute and as per Section 56 the Council shall adopt the regulations which shall be notified by the Government. In the meantime, the Institute shall follow the rules of the ASI (provided such rules do not contravene the provisions of the Act) till the new rules and regulations are notified by the Government.

The accounts from 1st April 2006 to 9th November 2006 for the ASI and from 10th November 2006 to 31st March 2007 for the Institute were drawn and finalized.

Constitution of the Council

No election of Members of the Council could be held during the year as the Government of India is yet to notify the rules for the manner in which elections are to be held. The Executive Committee of ASI continues to discharge all the functions and powers of the Council in terms of Sec.12(2)(b) of the Actuaries Act, 2006. Further, the Government has nominated Dr. R. Kannan, Member Actuary, IRDA and Mr. G.C.Chaturvedi, Jt. Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking and Insurance Division, Government of India u/s. 12(2)(b) of the Act. The following are the members of the Council as at 31/07/2007 :

1. G. N. Agarwal, President
2. K. S. Gopalakrishnan, Vice President
3. Heerak Basu, Hon. Secretary
4. G. L. N. Sarma
5. P. A. Balasubramanian
6. T. Bhargava
7. N. M. Govardhan
8. S. Madhusudhanan
9. K. K. Wadhwa
10. K. Sriram
11. R. Kannan
12. G. C. Chaturvedi

Office Bearers

As a result of election held during the EC Meeting on 01.07.2006, the following office bearers took charge :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Kannan R. | President |
| 2. Agarwal G. N. | Vice-President |
| 3. Gopalakrishnan K. S. | Hon. Secretary |
| 4. Sarma G.L.N. | Joint Hon. Secretary and Treasurer |

Consequent upon the resignation of Dr. R. Kannan, a fresh election was held on 24.03.2007 and the following office bearers took charge :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Agarwal G. N. | President |
| 2. Gopalakrishnan K.S. | Vice-President |
| 3. Basu Heerak | Hon. Secretary |

Meetings

From 1st July 2006 to 30th June 2007, the Executive Committee of the ASI and the Council together met 8 times at Mumbai on the following dates :

1. 01.07.2006
2. 26.08.2006
3. 11.11.2006
4. 05.01.2007
5. 10.02.2007
6. 24.03.2007
7. 12.05.2007
8. 05.06.2007

Committees

During the period a number of committees were constituted, brief details in their respect are as under :

i) Education Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. K.P.Narsimhan. It is primary responsible for finalizing the course content/syllabus as well as for prescribing minimum pass marks for each subject.

ii) Examination Committee :

The committee worked under the chairmanship of Mr. Arpan Thanawala. It is responsible for conduct of examinations, finalizing paper setters and markers, examination schedule etc. It is also responsible for publication of results.

During the period two examination diets i.e. Oct/Nov. 2006 and May 2007 were held. In Oct/Nov. 2006 diet, 4043 candidates registered for the examination while 3079 appeared. In May 2007 diet, 4426 candidates registered and 3046 appeared. The examination committee has been able to successfully declare the results in 8 weeks' time of completion of the examination. The most encouraging feature of this year's examination is that it produced seven more Fellow members. The overall pass percentage in May 2007 exam improved to 24.6%. In May 2006 and November 2006 examinations it was 18.6% and 22.8% respectively.

iii) Life Insurance Committee :

The committee worked first under the chairmanship of Mr. N.M.Govardhan and later under Mr. G.N. Agarwal. It is responsible for issuance of guidance notes, Continuing Professional Development (CPD) programmes, conferences/seminars, discussion on papers, insurance laws and regulations, etc.

During the year it undertook a number of activities such as holding seminars on Current Issues in Life Insurance (CILA) on 17 and 18 August 2006 and workshop on stochastic modelling on 23rd and 24th November 2006 and meeting of working group on Risk Based Capital (RBC). Review of Guidance Notes (GNs) 2 and 7 was also undertaken in which GN7 has been modified.

iv) General Insurance Committee :

It is responsible for issuance of GNs, CPD programmes, conferences/seminars, etc. It worked under the chairmanship of Mr. P. I. Mujumdar.

v) Pensions and Social Security Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. K. P. Sarma. The main objective of the Committee is to promote use of actuarial services in areas related to employee benefit and provision of social security. It is responsible for arranging CPD programmes, issues related to accounting standards issued by Accountants' profession i.e. AS15 and International Accounting Standard 19.

The committee conducted a seminar on Current Issues in Retirement Benefits (CIRB) in June 2007. It also finalized GN26.

vi) International Relations Committee :

The Committee has been constituted to ensure furtherance of the cause of IAI internationally and to establish relationships with other actuarial bodies of the world. It worked under the chairmanship of Mr. V.Rajagopalan.

vii) Professional Affairs and Standards Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. P. A. Balasubramanian. It is responsible for CPD issues across all practice areas, matters relating to professional conduct standards and their compliance, enforcement of discipline and good conduct amongst members.

The committee conducted two fellowship seminars in December 2006 and June 2007. Further IAI book of Actuarial Standards was brought for the benefit of the members.

viii) Health Insurance Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. Liyaquat Khan. Its objectives include arranging programmes/activities in Health Insurance area. It held a workshop on Health Insurance/Care Regulatory Issues in January 2007.

ix) Financial Risk Management Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. K. S. Gopalakrishnan. It deals with and promotes actuarial applications into management of financial risks, regulatory aspects of financial services industry, etc.

x) Administration Committee :

It worked under the chairmanship of Mr. J. S. Salunkhe and addressed many miscellaneous administration issues such as entitlement of travels expenses and hotel accommodation charges for the Chairpersons of Committees and faculties and special invitees for the meetings, seminars and workshops, acceptance of amounts in respect of membership fees, subscription fees, examination fees and study material charges by cheques from members, etc.

xi) Other Committees :

Investment Committee worked under the chairmanship of Dr. R. Kannan and gave advice from time to time in respect of investment of funds belonging to ASI/IAI. The Actuary India Committee worked under the chairmanship of Mr. G. N. Agarwal. It brought out monthly issues of the Actuary India magazine.

xii) Disciplinary Tribunal/Committee :

It consisted of the following members :

1. Mr. Justice M. S. Rane
2. Mr. M. G. Diwan
3. Mr. T. S. Vishwanath
4. Mr. Debabrata Basu

A Disciplinary Committee will be constituted in terms of Section 26 of the Actuaries Act, 2006 shortly.

Ordinary General Meeting (OGM)

No OGM was held during this period.

Acknowledgements

The staff at the IAI continued their hard work and demonstrated commitment of high degree in coping with ever increasing work load.

Various Members of Boards and Committees have contributed throughout the year and brought activities to very high standards of professionalism.

Examiners and Markers have contributed to the conduct of examinations which has enhanced IAI's standing as a credible professional examining body.

Sd/-

(Illegible), President

[ADVT III/IV/Exty./69 ZI/2007]

ANNEXURES**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**

Report of the Auditors relating to Accounts to the council of The Institute of Actuaries of India.

- 1) We have audited the attached Balance Sheet of Institute of Actuaries of India, Mumbai as at 31st March, 2007 together with Income and Expenditure Account for the period ended 31st March, 2007 annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2) We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 3) We report that –
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b) In our opinion accounts are maintained in conformity with the requirements of The Actuaries Act, 2006.
 - c) The Balance sheet and Income and Expenditure Account dealt by this report are in agreement with the books of accounts.
 - d) In our opinion the Balance sheet and Income and Expenditure Account comply with the relevant Accounting standards
 - e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said accounts read together with notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :
 - i) In the case of Balance sheet of the state of affairs as at 31st March 2007 and
 - ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the period ended 31st March, 2007.

For Sarath & Associates
Chartered Accountants

Sd/

R. Lakshmi Rao
Partner
M. No. F-29081

Place : Mumbai
Date : 09-08-2007

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2007.

As at 09.11.06	FUNDS & LIABILITIES	Sch.	As at 31.03.07	As at 09.11.06	PROPERTY & ASSETS	Sch.	As at 31.03.07
24,646,182.12	CAPITAL AND RESERVES	"A"	25,262,931.29	2,335,692.92	FIXED ASSETS	"J"	2,568,631.43
1,409,489.39	PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS	"B"	1,380,100.97	40,730,806.00	INVESTMENTS	"F"	49,330,806.00
11,306,269.65	EARMARKED ENDOWMENT FUND	"C"	15,303,703.46	3,939,908.15	<u>CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES :</u>	"G"	1,603,953.37
1,465,090.08	OTHER EARMARKED FUNDS	"D"	1,482,189.49	342,413.25	A) CASH & BANK BALANCES	"H"	354,016.25
3,361,559.33	CURRENT LIABILITIES	"E"	5,894,912.52	3,069,953.73	B) SUNDRY DEBTORS	"I"	3,923,016.37
8,230,183.48	ASI - MORBILITY & MORBIDITY RESEARCH INSTITUTE (MMRI)	"Ea"	8,456,585.69		C) LOANS & ADVANCES		
50,418,774.05			57,780,423.43	50,418,774.05			57,780,423.42

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "T"
As per Our Report of Even Date

For Sarath & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
R. Lakshmi Rao
Partner
M. No. F-29081
Place : Mumbai
Date : 09-08-2007
DATE : 09.08.2007

For The Institute of Actuaries of India

Sd/-
G.N. Agarwal
President

Sd/-
K.S. Gopalakrishnan
Vice President

Sd/-
Heerak Basu
Hon. Secretary

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2007.**

Period Ended 09.11.2006	EXPENDITURE	Sch.	Period Ended 31.03.2007	Period Ended 09.11.2006	INCOME	Sch.	Period Ended 31.03.2007
425,244.84	ESTABLISHMENT EXPENSES	"K"	340,698.50	1,241,803.76	INTEREST ON INVESTMENT: ON SAVING BANK ACCOUNT ON F.D. WITH BANKS & PUB. CORP.	"O"	1,130,180.42
11,401,037.85	EXPENSES ON OBJECTS OF THE INSTITUTE	"L"	6,595,585.23	339,489.36	Less : TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS	"M"	165,507.99
39,284.00	<u>AUDIT FEES</u>			902,314.40			964,672.43
16,854.00	Internal Audit Fees		28,060.00	10,732,637.00	EDUCATIONAL SERVICES & EXAM. FEES	"P"	4,992,947.37
	Statutory Audit Fees		16,854.00	2,574,075.00	MEMBERS CONTRIBUTION :	"Q"	763,590.00
295,301.90	DEPRECIATION	"J"	258,844.53	2,237,700.00	SEMINAR FEES	"R"	1,489,030.00
4,456,567.81	BALANCE CARRIED DOWN		1,049,697.54	187,564.00	OTHER INCOME	"S"	79,500.00
16,634,290.40	Total		8,289,739.80	16,634,290.40	Total		8,289,739.80
32,603.52	PRIOR PERIOD ITEMS	"N"	378561.26	4,456,567.81	BALANCE BROUGHT DOWN		1,049,697.54
4,423,964.29	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE FOR THE PERIOD TRANSFERRED TO GEN. FUND		671,136.28				
4,456,567.81			1,049,697.54	4,456,567.81			1,049,697.54

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "T"

As per Our Report of Even Date

For Sarath & Associates
Chartered Accountants

Sd/-

R. Lakshmi Rao

Partner

M. No. F-29081

Place : Mumbai

Date : 09-08-2007

For The Institute of Actuaries of India

Sd/-

G.N. Agarwal

President

Sd/-

K.S. Gopalakrishnan

Vice President

Sd/-

Heerak Basu

Hon. Secretary

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31.03.2007

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE A CAPITAL AND RESERVES			
	a) Capital		
	Capital donated by :		
325000.00	i) Chairman Executive Committee of General Insurance Council	325000.00	
500000.00	ii) General Insurance Corporation of India	500000.00	
151270.00	iii) Other Funds	151270.00	
976270.00	Balance as at 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	976270.00	
	b) General Reserves :		
21009502.46	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	23669912.12	
4423964.29	Add : Trfd from Income and Expenditure Account	671136.28	
0.00	Less : President's award for paper of Special Significance at GCA (Sch.B(v))	1137.11	
148.81	Less : Prof. G.S. Diwan Memorial / Prize / Awards Fund (Sch.B(a))	53250.00	
1763405.82	Less : The Actuary Magazine Fund (Sch. K (b))	0.00	
23669912.12	Balance as at 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	24286661.29	
24646182.12			25262931.29

SCHEDULE A(a)(ii) Details of Funds (Others)

Month & Year	Name	Amount
12-Aug-95	M/s Thanawala Consultancy Service	50000.00
13-Dec-95	Mr. D. Basu	1000.00
27-Dec-95	Mr. M.C. Chakravarty	10000.00
17-Jan-96	Mr. S.V. Ramaswamy	1000.00
23-Jan-96	Mr. M.S. Venkataraman	2000.00
01-Feb-96	Mr. S.P. Subhedar	2500.00
23-Feb-96	Mr. D.K. Lodaya	1000.00
26-Feb-96	Mr. J.L. Smith	2500.00
19-Mar-96	Mr. H.L. Bhatia	10000.00
19-Mar-96	Mr. B.P. Gupta	6550.00
08-May-96	Mr. K.V.Y. Sastry	1000.00
16-May-96	Ms. Archana Tripathy	300.00
21-May-96	Mr. S. N. Narayanan	3320.00
08-Jul-96	Mr. D.K. Pandit	10000.00
21-Aug-96	Mr. M. Veerabadrian	1000.00
05-Dec-96	Mr. V.L. Sapre	5000.00
13-Dec-96	Mr. B.P. Gupta (L.M.)	10500.00
31-Mar-96	Mr. A.R. Prabhu	1000.00
03-Apr-96	Mr. D. Basu	100.00
15-May-96	Mr. T. S. Swaminathan	25000.00
25-Jun-96	M/s Thanawala Consultancy Service	7500.00
		151270.00

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE B PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS :			
a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Award Fund :			
(For Best Actuarial Paper & Subject SA2)			
7907.93	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	0.00	
193.26	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	0.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
148.81	Add : Amount trfd from General Reserve	53250.00	
8250.00	Less : Prize paid during the year	53250.00	
0.00	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	0.00	0.00
b) Prof. (Late) G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Education Fund (Donated by R.M. Mehta)			
153771.52	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	157529.44	
3757.92	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	1838.56	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
157529.44	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	159368.00	159368.00
c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund :			
(For Research Project)			
139509.14	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	142918.51	
3409.37	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	1668.04	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
142918.51	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	144586.55	144586.55
d) Prof. Diwan Birth Centenary Education Fund (For Subject CT8)			
132677.56	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	135919.98	
8242.42	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	1586.35	
2000.00	Add : Received during year	0.00	
2000.00	Less : Prize paid during year	2000.00	
135919.98	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	135506.33	135506.33
e) K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund :			
(For Subject CT1)			
13594.39	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	13426.62	
332.22	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	156.70	
500.00	Less : Prize paid during the year	500.00	
13426.61	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	13083.32	13083.32
f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund : (For Subject CT3)			
31432.01	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	32200.16	
768.15	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	375.82	
0.00	Less : Prize paid during the year	500.00	
32200.16	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	32075.98	32075.98
g) Shanti Trust Endowment Fund : (For best Research/Article by Member)			
163439.65	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	167433.85	
3994.20	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	1954.16	
0.00	Less : Prize paid during the year	8500.00	
167433.85	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	160888.01	160888.01
h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT5)			
15133.18	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	14253.01	
369.83	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	166.35	
1250.00	Less : Prize paid during the year	1250.00	
14253.01	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	13169.36	13169.36
663681.56	Balance C/d.....	658677.55	

As at 29.11.06	Particulars		As at 31.03.07	As at 31.03.07
663681.56		Balance B/fd.....		658677.55
	l) Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT2)			
19866.86	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		19102.37	
485.51	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		222.95	
1250.00	Less : Prize paid during the year		750.00	
19102.37	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		18575.32	18575.32
	j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT6)			
20127.93	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		19869.82	
491.89	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		231.91	
750.00	Less : Prize paid during the year		0.00	
19869.82	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		20101.73	20101.73
	k) Canada Life Scholarship Endowment Fund : (For Successful Associates and Fellows)			
207264.00	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		212349.68	
5065.68	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		2476.38	
0.00	Less : Prize paid during the year		0.00	
212349.68	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		214828.06	214828.06
	l) K.A. Pandit Memorial Prize Fund : (For Subject ST4)			
78262.78	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		79175.39	
1912.61	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		924.07	
1090.00	Less : Prize paid during the year		1000.00	
79175.39	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		79099.46	79099.46
	m) K.P. Sarma Prize Fund : (For Subject CT4)			
32940.67	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		32745.69	
865.02	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		382.18	
1000.00	Less : Prize paid during the year		1000.00	
32745.69	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		32127.87	32127.87
	n) Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund : (For Sub. ST2)			
26320.86	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		25964.10	
643.24	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		303.03	
0.00	Add : Received during year		0.00	
1000.00	Less : Prize paid during the year		0.00	
25964.10	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		26267.13	26267.13
	o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund : (For Subject CT7)			
33019.00	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		33325.93	
806.93	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		388.95	
500.00	Less : Prize paid during the year		500.00	
33325.93	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		33214.89	33214.88
	p) Peter Akers Research Fund : (For Life Insurance)			
12593.90	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		12901.67	
307.77	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))		150.58	
0.00	Less : Prize paid during the year		0.00	
12901.67	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		13052.25	13052.25
	q) Peter Akers Prize Fund (For Subject ST3)			
34223.13	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006		34059.48	
836.36	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))		397.52	
1000.00	Less : Prize paid during the year		1000.00	
34059.48	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007		33457.00	33457.08
1133175.76		Balance C/fd.....		1129401.25

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
1133175.70	Balance B/fd.....		1129401.25
	r) J.R. Joshi Prize Fund : (For Subject CA3)		
28372.68	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	26066.06	
693.38	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	327.57	
1000.00	Less : Prize paid during the year	1000.00	
28066.06	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	27393.63	27393.63
	s) K.S. Gopalakrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund : (For Subject ST5)		
35300.09	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	35162.77	
862.68	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	410.39	
1000.00	Less : Prize paid during the year	1000.00	
35162.77	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	34573.16	34573.16
	t) Late Meena Sidhwani Act. Edu. Fund (For Awards to New FASIs)		
48719.50	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	49910.12	
1190.62	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	582.52	
0.00	Less : Prize paid during the year	6976.00	
49910.12	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	43516.64	43516.64
	u) Late R.M. Mehta Memorial Fund		
45906.07	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	47027.94	
1121.87	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	548.87	
0.00	Amount received during the year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
47027.94	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	47576.81	47576.81
	v) Presidents Award for paper of Special Significance at GCA		
13376.07	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	13702.96	
326.89	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	159.93	
0.00	Add : Trfd from General Reserve	1137.11	
0.00	Less : Prize paid during the year	15000.00	
13702.96	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	0.00	0.00
	w) Late A S Gupta Prize Fund (For best Girl Student each year)		
100000.00	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	102443.84	
2443.84	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (a))	1195.65	
0.00	Less : Prize paid during the year	6000.00	
102443.84	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	97639.49	97639.49
1409489.39	Total		1380100.97

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE C	EARMARKED ENDOWMENT FUNDS :		
	a) Swiss Re :		
96148.79	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	98498.51	
2349.72	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	1149.60	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Library Books	0.00	
98498.51	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	99648.11	99648.11
	b) Swiss Re : (Furniture)		
271880.89	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	278525.21	
6644.32	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	3250.73	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
278525.21	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	281775.94	281775.94
	c) Standard Life :		
232406.91	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	238086.55	
5679.64	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	2778.76	
0.00	Less : Purchase of Library Books	0.00	
238086.55	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	240865.31	240865.31
	d) Standard Life : (Furniture)		
471547.11	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	483070.94	
11523.84	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	5638.04	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
483870.94	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	488708.98	488708.98
	e) Prudential Corporation Asia Ltd. :		
1583614.92	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	1622315.87	
38700.95	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	18934.43	
0.00	Less : Paid for Excellence Performance & passing Three or more subjects at a time	0.00	
1622315.87	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	1641250.30	1641250.30
	f) HDFC :		
424992.75	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	435378.87	
10386.12	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	5081.41	
0.00	Less : Paid for Publication of Actuarial Directory	0.00	
435378.87	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	440460.28	440460.28
	g) CPD / Research :		
709065.20	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	726393.59	
17328.39	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	8477.91	
0.00	Less : Interest transferred to ASI to meet expenses	0.00	
726393.59	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	734871.50	734871.50
	h) The Actuary India fund (House Magazine) :		
(1734887.82)	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	0.00	
96482.00	Add : Amount recoverable from MMRI a/c of previous year	0.00	
1763405.82	Add : Transferred from General Reserve	0.00	
125000.00	Less : Last year Advertisement amount recd in advance taken in Reserve	0.00	
0.00	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	0.00	0.00
	i) GCA & Research Fund :		
5187159.55	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	5274266.44	
(31950.00)	Add : Surplus of ← 6th & 9th GCA and Surplus of → 9th GCA	3865475.70	
126278.89	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	61557.19	
0.00	Add : Amount recd. from Munich Re ag. reimb. of dinner exps. at 6th GCA	0.00	
(12780.00)	Less : 40% of Surplus of 8th GCA & Research Fund transf. to Building Fund [Sch. C(J)]	1546190.28	
5274266.44	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	7655109.05	7655109.05
9156535.98	Balance B/fd.....		11582689.46

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE C EARMARKED ENDOWMENT FUNDS :			
9156335.98	Balance C/fd.....		11582689.46
	j) Building Fund :		
2110926.11	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	2149733.67	
(12780.00)	Add : Transferred from GCA & Research Fund (40% of 8th GCA) [sch.C(i)]	1546190.28	
51587.56	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (b))	23090.04	
2149733.67	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	3721013.99	3721813.99
11306269.65	Total		15303703.46
As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE D OTHER EARMARKED FUNDS :			
	a) LIC of India		
794844.82	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	814371.96	
19427.14	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (c))	9604.73	
0.00	Less : Transferred to income and expenditure account	0.00	
814371.86	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	823876.69	823876.69
	b) ICICI :		
629695.00	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	645083.71	
15388.71	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (c))	7528.92	
0.00	Less : Interest transferred to ASI to meet expenses	0.00	
645083.71	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	652612.63	652612.63
	c) Employees Relief Funds :		
5500.00	Balance as at 31.03.2006 ← 9th Nov. → 2006	5634.41	
75402.00	Add : Amount received during the year	0.00	
134.41	Add : Interest allocated during year (Schedule (M) (c))	65.76	
75402.00	Less : Amount paid during the year	0.00	
5634.41	Balance as on 09.11.2006 ← 31st Mar. → 2007	5700.17	5700.17
1465090.06	Total		1482189.49
As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE E CURRENT LIABILITIES			
	Sundry Creditors		
2496.00	Dilli Enterprises	5279.00	
30.00	JMD Communication Network	0.00	
0.00	Delux Stationery & Xerox	0.00	
0.00	Liberty Enterprise	0.00	
0.00	Printania Offset Pvt. Ltd.	1582.00	6861.00
2526.00			
	Other Liability		
203800.25	Deposit Refundable (ASI Members)	308009.25	
37602.00	Gratuity Liability - Actuarial value	23944.00	
400.00	Recd in advance - contribution to PPF (staff)	3600.00	
505000.00	Amount Recd. In Advance	4846031.84	
50000.00	RGA -RE (Advertisement Income)	50,000.00	
30000.00	Munich RE (Advertisement Income)	2,85,168.00	
200000.00	Stochastic Modelling Workshop Fees		
225000.00	Sponsorship Amt. for 9th GCA		
	Exam. Fees May 2007	44,39,092.84	
	Late Exam Fees May 2007	71,771.00	
33100.75	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2007-08	225475.75	
3400.00	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2008-09	8725.00	
	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2009-10	150.00	
0.00	TDS on Contractors Payable	241.00	
1889.00	TDS on service charges payable	0.00	
400.00	Profession tax Payable	0.00	
2573441.33	Outstanding Liability	471874.68	5888051.52
3159033.33			
3161559.33	Total		5894912.52

SCHEDULE E(a)		ASI-MMIB Fund - List of Contributors	
Name	Date	Amount	
Insurance Regulatory & Development Authority	06-Oct-03	500000.00	
HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	06-Oct-03	500000.00	
Aviva Life Insurance Co. Ltd.	06-Oct-03	500000.00	
Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	07-Oct-03	500000.00	
AMP Sanmar Assurance Co. Ltd.	07-Oct-03	500000.00	
ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	08-Oct-03	500000.00	
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	08-Oct-03	500000.00	
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	13-Oct-03	500000.00	
Tata AIG Life Insurance Co. Ltd.	14-Oct-03	500000.00	
OM Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500000.00	
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500000.00	
Met Life India Insurance Co. Ltd.	21-Nov-03	500000.00	
LIC of India	22-Nov-03	500000.00	
		6500000.00	

	a) MMRI (formerly Name as MMIB)				
7159971.00	Balance as at 31.03.2006	←	9th Nov.	→	2006
206323.48	Add : Interest allocated during year				
1000000.00	Add : Contribution by ASI				
138111.00	Less : Expenses incurred by ASI				
8230183.48	Balance as on 09.11.2006	←	31st Mar.	→	2007
					8466585.69

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE F			
	INVESTMENTS		
	a) US 64 Bonds		
54000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (540 Bonds)	54000.00	
70000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (700 Bonds)	70000.00	
80000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (800 Bonds)	80000.00	
	b) In Bonds of		
2000000.00	IDBI Fixed Bonds	2000000.00	
1000000.00	Gujarat Electricity Board Bonds	1000000.00	
1000000.00	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	1000000.00	
	c) In Fixed Deposit with		
1820000.00	HDFC Ltd.	2320000.00	
416000.00	Bank of India, Nariman Point	3016000.00	
1065428.00	UTI Bank, Fort, Mumbai	1065428.00	
1385380.00	Corporation Bank, Mumbai	1385380.00	
50000.00	Central Bank of India - Churchgate	50000.00	
100000.00	Andhra Pradesh Power Finance	100000.00	
1000000.00	Tamilnadu Power Finance Corporation Ltd.	1000000.00	
7310000.00	HDFC Ltd. (ASI - MMIB)	8310000.00	
2000000.00	Kotak Mahindra Bank	2000000.00	
	d) In Mutual Funds		
2000000.00	Franklin Templeton	2000000.00	
1000000.00	HDFC Mutual Fund	1000000.00	
2000000.00	ICICI Prudential	2000000.00	
40730806.00		49330806.00	49330806.00
	Total		49330806.00

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE G	CASH AND BANK BALANCES		
	a) Cash Balances		
2825.00	i) Cash on Hand	9794.63	
10000.00	ii) Cash (General)	5800.00	
	b) Bank Balances in Saving Account with		
390445.58	i) Bank of India, Nariman Point (A/c No. 4553)	34481.58	
41258.12	ii) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 57127) Book Overdraft	(25983.99)	
2401237.41	iii) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 58426)	1427919.11	
46788.04	iv) Central Bank of India, Churchgate (A/c No. 9080)	48946.04	
1047359.00	v) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 8725) (ASI - MMIB)	102996.00	
3939908.15		1603953.37	1603953.37

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE H	SUNDRY DEBTORS		
10000.00	a) United India Insurance Co. Ltd.	10000.00	
20000.00	b) First Apex	20000.00	
50000.00	c) Hanover Re	50000.00	
30000.00	d) D W Simpson	30000.00	
27413.25	e) Watson Wyatt India Pvt. Ltd.	57413.25	
75000.00	f) Darwin Rhodes	49440.00	
0.00	g) GAAPS	30000.00	
100000.00	h) EMB Consultancy	59663.00	
0.00	j) General Cologne Re	30000.00	
30000.00	k) HDFC Standard Life	0.00	
0.00	k) Reliance Life	17500.00	
342413.25		354016.25	354016.25
342413.25		Total	354016.25

As at 09.11.06	Particulars	As at 31.03.07	As at 31.03.07
SCHEDULE I	LOANS & ADVANCES		
	a) LOANS AND ADVANCES :		
649620.50	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Banks)	677357.19	
1540350.16	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Public Corporation)	1945406.28	
531849.65	Tax deducted at Source Recoverable (ASI - Office)	794339.75	
	Assessment Year 2001-2002 (Rs. 5207/-)		
	Assessment Year 2002-2003 (Rs. 8212/-)		
	Assessment Year 2004-2005 (Rs. 106918/-)		
	Assessment Year 2005-2006 (Rs. 117064)		
	Assessment Year 2006-2007 (Rs. 127439.20)		
	Assessment Year 2007-2008 (Rs. 388806.55)		
	Tax deducted at Source Recoverable (Delhi Chapter)		
	Assessment Year 2001-2002 (Rs. 8830/-)		
	Assessment Year 2002-2003 (Rs. 7301/-)		
	Assessment Year 2005-2006 (Rs. 24562/-)		
13544.00	Telephone Deposit	13544.00	
1000.00	Electricity Deposit	1000.00	
10000.00	Audio Conference	10000.00	
22072.15	Prepaid Exps. (The New India Insu. Fire policy Premium for ASI Premises)	386307.40	
	b) OTHER ADVANCES		
21000.00	Staff Loan	79000.00	
3500.00	Amount receivable from IMC (Security Deposit of Hall Booking)	500.00	
15561.75	Amount receivable from Watson Wyatt	15561.75	
261455.50	Amount paid in advance		
3069953.73		3923018.37	3923018.37

SCHEDULES TO INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2007.

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
SCHEDULE K ESTABLISHMENT EXPENSES			
72822.43	a) Meeting Expenses	144875.27	
129594.89	b) Salaries (Including Bonus/Ex-grants/Gratuity/Leave encashment)	89620.65	
66402.00	c) Printing and Stationary	24341.20	
48130.14	d) Postage, Courier, Telegram & Telephone Charges	15083.32	
82143.55	e) Office Rent	51053.15	
24352.12	f) Electricity Charges	13906.56	
657.41	g) Conveyance	375.45	
1142.30	h) Bank Charges	1442.90	340698.50
425244.84			

SCHEDULE L EXPENSES ON OBJECT OF THE TRUST

655401.87	a) Meeting Expenses	1303877.44
1166353.98	b) Salaries (Including Bonus/Ex-grants/Gratuity/Leave encashment)	806585.85
597618.00	c) Printing and Stationary	219070.80
433171.25	d) Postage, Courier & Telephone Charges	135749.84
5918.64	e) Conveyance	3379.05
3200590.53	f) Expenses for conducting Examination	0.00
952926.25	g) Actuarial Education Service : Study Material	1538721.91
1620201.50	h) Seminar Expenses	370378.81
148272.40	i) Repairs & Maintenance	38986.00
10280.70	j) Bank Charges	12986.10
9319.90	k) Printing of Actuarial Directory	746106.00
11100.85	l) Fire Insurance Premium	6545.40
65653.00	m) Professional Charges	11236.00
24887.00	n) Travelling Exps. to EC Mem/Committee Members	21084.00
0.00	o) Contribution paid to Charity Commissioner	190930.75
33931.25	p) Office & General Exps.	5546.00
15000.00	q) Subscription Fees (NIA)	0.00
90841.00	q) Subscription Fees (IAA)	0.00
15120.00	r) Subscription Fees (Scandinavian Actuarial Journal)	0.00
38282.83	s) Staff Welfare	60530.37
14408.49	v) Election Exps.	0.00
(1671.50)	ac) Difference in Foreign Exchange	1121.00
106808.00	ae) Printing of Student Hand Book	0.00
1689.00	ah) Penalty (Profession Tax)	0.00
739291.94	aj) Office Rent	459478.35
219169.07	ak) Electricity Charges	125159.03
2547.00	am) Advertising Exp	2548.00
1223926.90	an) Actuary India Magazine Exp.	503603.18
0.00	ao) Legal Fees	27060.00
0.00	ap) 9th GCA Expenses	0.00
0.00	aq) Admission Expenses	624.00
0.00	ar) Insurance Charges	3682.75
0.00	as) Subscription Expenses	594.60

11401037.85**6595585.23**

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
SCHEDULE M INTEREST ALLOCATED TO SPECIFIC FUNDS			
193.26	a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Awards Fund (For Best Actuarial Paper & Subject SA2)	0.00	
3757.92	b) Prof.(Late) G.S.Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Edu.Fund (Donated by R.M. Mehta)	1838.56	
3409.37	c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund (For Research Project)	1668.04	
3242.42	d) Prof. G.S.Diwan Birth Cenetary Education Fund (For Subject CT8)	1586.35	
332.22	e) K.R.Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund (For Subject C	156.70	
768.15	f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund (For Subjct CT3)	375.62	
3994.20	g) Shanti Trust Endowment Fund (For Best Research / Article by Memt	1954.16	
369.83	h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund (For Subject CT5))	166.35	
485.51	i) Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund (For Subjct CT2)	222.95	
491.89	j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund (For Subjct CT6)	231.91	
5065.68	k) Canada Life Scholarship Endowment Fund (For Successful Associates & Fellows)	2478.38	
1912.61	l) K.A. Pandit Prize Fund (For Subject ST4)	924.07	
805.02	m) K.P. Sarma Prize Fund (For Subject CT4)	382.18	
643.24	n) Janardhan Pundlik Nerulkar Prize Fund (For Subject ST2)	303.03	
806.93	o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund (For Subject CT7)	388.95	
693.38	p) J.R. Joshi Prize Fund (For Subject CA3)	327.57	
836.36	q) Peter Aker Prize Fund (For Life Insurance)	397.52	
307.77	r) Peter Aker Research Prize Fund (For Life Insurance)	150.58	
862.68	s) K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund (For Subject ST5)	410.39	
2349.72	t) Swiss Re (Library infrastructure)	1149.60	
5679.64	u) Standard Life Fund	2778.76	
38700.95	v) Prudential Corporation Fund (Coaching Classes & Examiners Semir	18934.43	
10386.12	w) HDFC (Actuarial Directory)	5081.41	
17328.39	x) CPD / Research Fund	8477.91	
126276.89	y) GCA & Research Fund	61557.19	
51587.56	z) Building Fund	25090.04	
19427.14	aa) LIC of India (Promotion & Prizes)	9504.73	
1190.62	ab) Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	582.52	
6644.32	ac) Swiss Re (Furniture)	3250.73	
11523.84	ad) Standard Life (Furniture)	5638.04	
15388.71	ae) ICICI	7528.92	
1121.87	af) Late R.M. Mehta Memorial Fund	548.87	
326.89	ag) Presidents Award for paper of Special significance at GCA	159.93	
2443.84	ah) Late A S Gupta Prize Fund	1195.65	
134.42	aj) Employees Relief Fund	65.76	165507.99
339489.36			

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
SCHEDULE N PRIOR PERIOD ITEMS		378561.26	
32603.52	2% Contribution to Charity Commissioner on Gross Annual Income chargeable to contributions for F.Y. 2001-02 to F.Y.2004-05.	378561.26	378561.26
32603.52			

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

SCHEDULE C INVESTMENT INTEREST**A) INTEREST ON SAVINGS BANK ACCOUNTS RECEIVED**

34414.00	Bank of India - D.N. Road - 56426	29884.00	
5558.00	Bank of India - D.N. Road - 57127	3327.00	
780.00	CBI - Churchgate - 9080	817.00	
6707.00	Bank of India - N.P. - 4553	7957.00	
			41985.00

B) INTEREST OF F.D. WITH BANKS RECEIVED

28004.87	Bank of India (Nariman Point)	20518.94	
86118.45	Corporation Bank	38282.08	
1984.00	Central Bank of India (Churchgate)	1016.00	
43284.11	UTI Bank (P.M. Road, Fort)	30392.13	
29917.80	HDFC Bank	0.00	
649620.50	Accrued Interest	677357.19	767566.34

C) INTEREST FROM OTHER INVESTMENTS

6885.00	UTI - US64	6885.00	
0.00	ICICI Bonds	53860.82	
191500.00	IDBI Bonds	144000.00	
624167.30	HDFC - ASI	614187.93	
6812.19	Andhra Pradesh Power Finance Corporation Ltd.	4337.81	
68732.88	Gujarat Electricity Board (GEB)	43767.00	
59121.92	Tamilnadu Power Finance Corporation Ltd.	85897.15	
67816.44	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	43183.56	
0.00	Income Tax Refund For A.Y. 2004-05	1867.00	
1540350.18	Accrued Interest	1945406.28	2943392.55
2189970.68	Less : Accrued Interest provided for Last Year		2622763.47
1241803.76			1130180.42

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

SCHEDULE P EDUCATIONAL SERVICES & EXAMINATION FEES

3996850.00	a) Examination Fees	1800.00	
5782687.00	b) Study Course and Tutition Material Fees	4417977.37	
102800.00	c) Sale of Actuarial Directory / Student Hand Book	12270.00	
42800.00	d) Exemption Fees	83400.00	
807500.00	e) Actuary India Magzine Income	477500.00	
			4992947.37
10732637.00			

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

SCHEDULE Q MEMBERS CONTRIBUTION

507000.00	i) Admission Fees	306375.00	
1957206.50	ii) Subscription Fees	404400.00	
109868.50	iii) Penalty / Late Fees	52815.00	763590.00
2574075.00			

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

SCHEDULE R SEMINARS FEES

590000.00	i) India Fellowship Seminar Fees	130000.00	
0.00	ii) Seminar on Actuarial Mgt. of Health & General Insurance (GIB)	55630.00	
160200.00	iv) Seminar Fees on CILA	0.00	
272000.00	v) CA2 Modelling Training Programme	0.00	
0.00	vii) Seminar on Stochastic Modelling Workshop Fees	335000.00	
1215500.00	viii) BAM Fees	968400.00	
			1489030.00
2237700.00			

Previous Period Ended 09.11.06	Particulars	Current Period Ended 31.03.07	Current Period Ended 31.03.07
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

SCHEDULE S OTHER INCOME

23950.00	Postal charges received from Members	28300.00	
6100.00	Sale of Scrap	1200.00	
14.00	Sundry Balance W/Back	0.00	
157500.00	COP Fees (Renewal & New Issuance)	50000.00	79500.00
187564.00			

INTEREST PROVISION FOR PRIZES AND SCHOLARSHIP FUND(S) :

SCHEDULE M(a)

Prizes and Scholarship Funds	As on 09.11.06	Interest @ 3%	Addition during the period 10/11/06 to 31/03/07	Paid during the period 10/11/06 to 31/03/07	As on 31.03.07
Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	49910.12	582.52	0.00	6976.00	43,516.64
Late R.M. Mehta Memorial Fund	47027.94	548.87	0.00	0.00	47,576.81
Peter Aker's Research Fund for Life Insurance	12901.67	150.58	0.00	0.00	13,052.25
Peter Akers Prize Fund	34059.48	397.52	0.00	1000.00	33,457.00
Presidents Award for Paper of Special Significance at GCA	13702.96	159.93	1137.11	15000.00	0.00
Prof. G.S. Diwan Birth Centenary Education Fund	135919.98	1586.35	0.00	2000.00	135,506.34
Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund	0.00	0.00	53250.00	53250.00	0.00
Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Endowment	142918.51	1668.04	0.00	0.00	144,586.55
K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment	13426.60	156.70	0.00	500.00	13,083.30
H.V. Krishnamurthy Prize Fund	32200.16	375.82	0.00	500.00	32,075.97
Shanti Trust Endowment Fund	167,433.85	1954.16	0.00	8500.00	160,888.00
Atmaram Scholarship Endowment	14,253.01	166.35	0.00	1250.00	13,169.36
Chhajju Ram Scholarship Endowment	19,102.37	222.95	0.00	750.00	18,575.32
Parvatidevi Scholarship Endowment	19,869.82	231.91	750.00	750.00	20,101.72
Canda Life Scholarship Fund	212,349.69	2476.38	0.00	0.00	214,826.07
K.A. Pandit Memorial Prize Fund	79,175.39	924.07	0.00	1000.00	79,098.46
K.P. Sama Prize Fund	32,745.69	382.18	0.00	1000.00	32,127.87
Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund	25,964.10	303.03	0.00	0.00	26,267.14
Prof. R.M. Joshi Prize Fund	33,325.93	388.95	0.00	500.00	33,214.89
J.R. Joshi Prize Fund	28,066.06	327.57	0.00	1000.00	27,393.62
Late G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial	157,529.44	1838.56	0.00	0.00	159,368.00
K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund	35,162.77	410.39	0.00	1000.00	34,573.16
Late A S Gupta Prize Fund	102,443.84	1195.65	0.00	6000.00	97,639.49
Total	1,409,489.37	16,450.48	55,137.11	100,976.00	1,380,100.96

INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :

SCHEDULE M(b)

Earmarked Endowment Fund	As on 09.11.06	Interest @ 3%	Addition during the period 10/11/06 to 31/03/07	Paid during the period 10/11/06 to 31/03/07	As on 31.03.07
Standard Life (Furniture)	483070.94	5638.04	0.00	0.00	488,708.98
Swiss Re (Furniture)	278525.21	3250.73	0.00	0.00	281,775.94
Swiss Re (Library Infrastructure)	98498.51	1149.60	0.00	0.00	99,648.11
Standard Life	238086.55	2778.76	0.00	0.00	240,865.32
Prudential Corporation Asia Ltd.	1622315.87	18934.43	0.00	0.00	1,641,250.29
HDFC	435378.87	5081.41	0.00	0.00	440,460.28
CPD / Research	726393.59	8477.91	0.00	0.00	734,871.50
The Actuary India Magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCA and Research	5274266.43	61557.19	2319285.42	0.00	7,655,109.04
Building Fund	2149733.68	25090.04	1546190.28	0.00	3,721,014.00
Total	11306269.65	131958.11	3865475.70	0.00	15303703.46

INTEREST PROVISION FOR OTHER EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :

SCHEDULE M(c)

Other Earmarked Fund	As on 09.11.06	Interest @ 3%	Addition during the period 10/11/06 to 31/03/07	Paid during the period 10/11/06 to 31/03/07	As on 31.03.07
LIC of India	814,371.96	9504.73	0.00	0.00	823,876.69
ICICI	645,083.71	7528.92	0.00	0.00	652,612.63
Employees Relief Fund	5,634.41	65.76	0.00	0.00	5,700.17
Total	1,465,090.08	17,099.41	0.00	0.00	1,482,189.49

SCHEDULE "J"
FIXED ASSETS

SR NO	PARTICULARS	RATE OF DEPRE. %	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
			AS AT 10.11.86	ADDITIONS FROM 10.11.86 TO 31.03.87	SALE/ADJUSTMENT FROM 10.11.86 TO 31.03.87	TOTAL AS ON 31.03.2007	UP TO 10.11.86	FOR THE PERIOD 10.11.86 TO 31.03.87	UP TO 31.03.87	AS AT 31.03.87	AS AT 09.11.06
1	WATER PURIFIER	25	6880.00	0.00	0.00	6880.00	1854.84	870.12	2524.76	4365.24	5035.36
2	AIR CONDITIONER	25	552482.00	0.00	0.00	552482.00	163855.50	53724.52	217581.02	334800.98	388636.50
3	AUDIO CONFERENCING SYSTEM	20	43480.00	0.00	0.00	43480.00	42241.73	1208.27	43450.00	0.00	1208.27
4	CASH BOX	10	3949.60	0.00	0.00	3949.00	1932.43	136.07	2070.50	1478.50	1616.57
5	COMPUTER	25	12844.00	438833.00	0.00	451677.00	1065.07	82445.21	83500.88	368178.12	11788.33
6	COMPUTER PRINTER	25	74350.00	52950.00	0.00	127300.00	60681.75	20508.30	81190.05	46109.95	13668.25
7	EPBAX SYSTEM	20	26773.00	0.00	0.00	26773.00	21574.55	2083.16	23657.71	3115.29	5198.45
8	ANSWERING MACHINE	10	2485.60	0.00	0.00	2485.00	695.06	97.07	792.13	1702.87	1799.94
9	FURNITURE	10	2517855.16	0.00	0.00	2517855.16	611213.87	97958.81	709172.68	1808782.48	1906741.25
	TOTAL		3,249,798.16	491,783.00	0.00	3,732,581.16	905,105.20	218,844.53	1,163,949.73	2,568,631.43	2,335,692.92
	Previous Period		4,486,281.83	12,844.99	0.00	4,499,126.83	1,868,140.82	295,301.90	2,163,442.71	2,335,692.92	2,618,150.81

Scheduled 'T': Significant Accounting Policies and Notes to Accounts .**A) Significant Accounting Policies**

1. **Accounting convention :**
The accounts are drawn up on historical cost basis.
2. **Income from interest:** Interest on investments is accounted for on accrual basis at the rates applicable to such investments. Income from earmarked investments of specific funds is credited to the respective funds. The incomes from investment not earmarked are credited to Income and expenditure Account.
3. **Investments:**
Investments are stated at cost.
4. **Fixed Assets and Depreciation:**
Fixed Assets are stated at their original cost.
Depreciation is provided under straight line method for the period ended 9th November, 2007 on prorata basis (as certified by President). The rates of depreciation are unchanged as previous period and are as stated below:

Type of Asset	Rate of Depreciation
Water Purifier	25%
Air Conditioner	25%
Audio Conferencing System	20%
Cash Box	10%
Computer	25%
Computer Printer	25%
EPBAX System	20%
Answering Machine	10%
Furniture	10%

5. As per the Accounting Policy followed in earlier years, 10% of the total expenditure namely Meeting Expenses, Salaries, Printing & Stationery, Postage, Courier, Telephone expenses, Office Rent, Electricity Charges, Conveyance and Bank Charges are treated as Establishment expenditure and the balance 90% is presumed to have been expended on the objects of the Institute. In respect of other expenses, it is presumed to have been expended wholly on the object of the Institute (as certified by president).
6. Staff is entitled to receive gratuity based on the Payment of Gratuity Act, 1972 and Provision is made on prorata basis based on Actuarial valuation for determining the Gratuity liability.
7. Stock of Study materials publications, Stationery etc are written off in the accounts under respective expense heads of accounts.
8. Allocation of Investment Income has been done in the following manner as certified by the President and relied upon by the auditors.

A = Opening Balance as on 10.11.2006 of Investment (+) Opening Cash and Bank Balances as on 10.11.2006.

B = Closing Balance as on 31.03.2007 of Investment (+) Closing Cash and Bank Balances as on 31.03.2007.

I = Investment income during the period 10.11.2006 to 31.03.2007 (+) Accrued Interest for the period 10.11.2006 to 31.03.2007

i = Interest rate for allocation of Investment Income to all funds.

$$i = (2 \times I) / [(A+B) - I]$$

$$A = 3,63,13,355.15$$

$$B = 5,08,31,763.37$$

$$I = 10,79,863.37$$

$$(A+B)-I = 8,60,65,255.15$$

$$i = 3\%$$

N.B: Interest rate for allocation of Investment income to funds is 3% prorata and 7.70% on annualised basis

B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Previous period's figures have been regrouped, rearranged & reclassified wherever necessary. The previous period's figures are not comparable as current periods figures are only for part of the year i.e. from 10.11.2006 being the date of incorporation of Institute of Actuaries of India till 31.03.2007.
2. Actuarial Society of India registered under the Societies Registration Act, 1860 and the Bombay Public Trust Act, 1950 was dissolved on 09.11.2006 and all the Assets and Liabilities of ASI were transferred to the Institute of Actuaries of India as on 10.11.2006. The Actuaries Act, 2006 received the assent of President on 27.08.2006. The Central Government appointed 10.11.2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Banking and Insurance Division) Notification dated 08.11.2006.
3. All the items of Income and Expenses including depreciation were allocated prorata from 01.04.06 to 09.11.06 and 10.11.2006 to 31.03.2007, 09.11.06 being date of dissolutions of Actuarial Society of India and 10.11.06 effective date of incorporation of Institute of Actuaries of India as per Central Govt notification dated 08.11.2006.
4. Sundry Debtors shown under Schedule 'N' outstanding as on 31.03.2007 is Rs. 3,54,016.25. Out of this an amount of Rs. 1,58,000/- since been received in F.Y. 2007-08.
5. Since, the certain funds namely, President's award for paper of special significance at GCA [Schedule B(v)] and Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Awards Funds [Schedule B(a)] have insufficient balance to make payment, the residuary expenses incurred from that specific funds are debited to General Fund account [Schedule A(b)].
6. Interest allocated during the year of Rs. 2,26,402.21 on ASI-MMRI (former name ASI-MMIB) is credited to ASI-MMRI account under schedule 'Ea' of the Balance sheet.
7. No provision for Fringe Benefit Tax Liability has been provided in the accounts during the period.
8. Prior Period Items include Rs. 3,78,561.26 on account of Contribution paid to Charity Commissioner on Gross Annual Income chargeable for contributions for F.Y. 2001-02 to F.Y. 2004-05.

9. Balance confirmation of accounts: All Debit and Credit balances including banks in the accounts as on 31.03.07 are as per books of accounts and subject to receipt of confirmation and reconciliation.
10. The erstwhile Actuarial Society of India has filed an application in Form No 56D for grant of exemption u/s 10(23C) (vi) of Income Tax Act, 1961 for A.Y. 2005-06 to A.Y. 2007-08 on 30.03.2006 in the office of Director of Income- Tax (Exemption). Further, Institute of Actuaries of India had sought for exemption u/s 10(23A) of Income Tax Act, 1961 and filed the necessary Papers in this regard to the Central Board of Direct Taxes, Govt. of India, North Block, New Delhi – 110001. In view of this, no Provision of Income-Tax is made in the accounts during the period under review.

For Sarath & Associates
Chartered Accountants

Sd/-

R. Lakshmi Rao
Partner
M. No. F-29081

Place : Mumbai

Date : 09-08-2007

For The Institute of Actuaries of India

Sd/-

G.N. Agarwal
President

Sd/

K.S. Gopalakrishnan
Vice President

Sd/-

Heerak Basu
Hon. Secretary